

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 5—अगस्त 11, 2017 (श्रावण 14, 1939)

No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 5—AUGUST 11, 2017 (SRAVANA 14, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

गृह मंत्रालय
(महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 जुलाई 2017

सं. ओ.दो. 4022/2015-कार्मिक डीए-6—सक्षम प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ. आशु उपेन्द्र दीक्षित, चिकित्सा अधिकारी (सहायक कमाण्डेंट), ईरला संख्या-10549, 41 बटालियन, केरिपुबल द्वारा दिनांक 15.07.2017 (अपराहन) को अपना चार्ज सौंप दिया गया है। तदनुसार, इनका नाम इस बल की नफरी से उसी तिथि अर्थात् 15.07.2017 (अपराहन) से हटाया जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
नई दिल्ली-110003, दिनांक 3 जुलाई 2017

सं. ई-16013/मनि-भा.पु.से./प्रति./2017/कार्मिक-2/1312—राष्ट्रपति ने श्री अनुराग, भा.पु.से. (टी.आर. : 1994) को बीपीआरएंडडी से पार्श्व बदलाव के आधार पर दिनांक 03.07.2017 (पूर्वाहन) से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में महानिरीक्षक पद पर दिनांक 24.07.2021 तक की अवधि के लिए या बकाया कार्यकाल जो पहले हो और या अगले आदेश आने तक के लिए नियुक्त करते हैं।

हस्ता./—अपठनीय
महानिदेशक/केऔसुब

दिनांक 5 जुलाई 2017

सं. ई-38013/01/आ.सू./रा.प.अ./2017/कार्मिक-1/342—राष्ट्रपति, निम्नलिखित उप. कमांडेंट (अग्नि) को वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 रु. 78,800—2,09,200/- में केओसुब में कमांडेंट (अग्नि) के पद में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से उन्हें इस पद पर पदोन्नत करते हैं :—

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	नियमित आधार पर कमाण्डेंट (अग्नि) में पद ग्रहण की तिथि
1.	नरहरी राउत	बल मुख्यालय, नई दिल्ली (अग्नि शाखा)	01.07.2017 (पूर्वाह्न)
2.	शिद्धार्थ राहा	एफएसटीआई, निसा हैदराबाद	28.06.2017 (पूर्वाह्न)

हस्ता./—अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
भारत के नियंत्रक — महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली-110124, दिनांक 9 मई 2017

सं. 149—जी.ई. 1/13-2006(भाग—III)—भारतीय लेखा एवं लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से सेवानिवृत्त हो चुके हैं—

क्रम संख्या	अधिकारियों के नाम तथा पदनाम श्री/सर्वश्री/सुश्री	सेवानिवृत्त की तिथि
1.	एम.के. विश्वास, महानिदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय प्राप्ति, नई दिल्ली।	सेवानिवृत्त दिनांक 30.04.2017 (अपराह्न)
2.	एम. के. सनल, निदेशक, कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय, बैंगलूरु।	सेवानिवृत्त दिनांक 30.04.2017 (अपराह्न)
3.	सुश्री पी. ए. हेलेन, वरिष्ठ उप-महालेखाकार कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ई. एण्ड आर.एस.ए.), केरल, तिरुवनन्तपुरम।	सेवानिवृत्त दिनांक 30.04.2017 (अपराह्न)
4.	एस. एस. परमार, निदेशक, कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-IV, नई दिल्ली, शाखा—चण्डीगढ़।	सेवानिवृत्त दिनांक 30.04.2017 (अपराह्न)

पुरुषोत्तम तिवारी
प्रधान निदेशक (कार्मिक)

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), ओडिशा

भुवनेश्वर, दिनांक 5 जुलाई 2017

स्था.आ.सं.-01[सं. प्रशा(आ एवं रा क्षेत्र लेप)/2-8-वर्ग “ख”-खंड-6/2017-18/424]—मुख्यालय के अनुभागीय कार्यालय आदेश सं.सि.ए-1/प्रशासन/53 दिनांक:01.06.2017 के अनुसार निम्नलिखित लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्य) अपने पदोन्नति के पश्चात् पे बैंड-3 में, वेतनमान रु 15,600—39,100/-, ग्रेड पे, रु 5,400/- [अब संशोधित स्तर-10, (56,100—1,77,500/-)] निम्नलिखित तिथि से वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्य) के रूप में वाणिज्य लेखापरीक्षा विंग, कार्यालय-प्रधान महालेखाकार (आ एवं रा क्षेत्र लेप), ओडिशा, भुवनेश्वर में पद ग्रहण कर लिया है :—

क्र.सं.	लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्य) का नाम	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्य) के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री निहार रंजन साहू	27.06.2017 (पूर्वाह्न)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्य) के संवर्ग पर उनकी पदोन्नति ट्रिब्यूनल/न्यायालय में विचाराधीन मामले पर उच्च/उच्चतम न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के अंतिम निर्णय की शर्त एवं उनके वरिष्ठों के दावे को प्रभावित किए बिना की गयी है।

वेतन निर्धारण के लिए जी.एस आर-622(ई) वित्त मंत्रालय दिनांक:29.08.2008 के अनुसार अपने विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

हस्ता/-अपठनीय
उपमहालेखाकार (प्रशासन)

खान मंत्रालय
(भारतीय खान ब्यूरो)
नागपुर, दिनांक 19 जुलाई 2017

सं. ए-19012/590/2017 स्था. ए—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री एस.जी. बन्सोड, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (एमई) को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दि 01.06.2017 (पूर्वाह्न) से सहायक खनन अभियंता के पद पर पदोन्नति की जाती है।

संजय कुमार सिंह
प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानियंत्रक

सं. ए-19012/591/2017 स्था. ए—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री एम. डी. कालवित, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (एमई) को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दि 01.07.2017 (पूर्वाह्न) से सहायक खनन अभियंता के पद पर पदोन्नति की जाती है।

संजय कुमार सिंह
प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानियंत्रक

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
(कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार)

एलएलपी नियम, 2009 और निम्नलिखित एलएलपी के विषय में

चंडीगढ़, दिनांक 25 जुलाई 2017

सं. आर.ओ.सी/एल.एल.पी/2017—एलएलपी नियम, 2009 के नियम 37 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित एलएलपी के नाम रजिस्टर से काट दिए गए हैं और निम्न एलएलपी विघटित हो गई हैं:—

Sl.No.	LLP No.	Name of LLP	SRN
1	AAD-1199	एक्स टू वाई लोजिस्टिक्स एलएलपी	M02028538
2	AAB-7327	हरिको हेल्थ एलएलपी	M02567568
3	AAB-0219	कीटोस वेबस्केप फैशंस एलएलपी	M02766392
4	AAA-9320	वेबेकटोर सोलूशन्स एलएलपी	M02848455
5	AAD-1048	बेलफेन फैशन एलएलपी	M02912301
6	AAD-8841	विजॉल्य सिक्योरिटी एंड स्टाफिंग एलएलपी	M03266103
7	AAA-7524	फ्यूचरटेक् इंडिया एलएलपी	M03283678
8	AAB-0012	डॉ. जी डायग्नोस्टिक एलएलपी	एलएलपी नियम, 2009 के नियम 37 क् अधीन स्वतः संज्ञान
9	AAA-9497	नेविगेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एलएलपी	एलएलपी नियम, 2009 के नियम 37 क् अधीन स्वतः संज्ञान
10	AAB-0369	साउथ एशिया पोस्ट एलएलपी	एलएलपी नियम, 2009 के नियम 37 क् अधीन स्वतः संज्ञान

11	AAA-1675	पीआरवी प्रॉपर्टीज एलएलपी	एलएलपी नियम, 2009 के नियम 37 क् अधीन स्वतः संज्ञान
12	AAB-1012	जिओस्पाटिअल एंड एन्वॉयरन्मेंटल मैनेजमेंट सर्विसेज एलएलपी	एलएलपी नियम, 2009 के नियम 37 क् अधीन स्वतः संज्ञान

वी.जी.निपाने

सह रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज

पंजाब एण्ड चन्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 21 जुलाई 2017

सं. आरओसी/से.560.एफटीई-2011/151—कंपनी अधिनियम 1956, की धारा 560 की उप-धारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी गई हैं :—

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
1	ओलिव ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड	U64100MH2014PTC256566	G31612336
2	निता इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1987PTC043416	G31651821
3	दग्रेटलीग.कॉम प्राइवेट लिमिटेड	U72300MH2012PTC238798	G31653157
4	एडिआरसी हेल्थ केयर लिमिटेड	U85110MH1995PLC092076	G31164155
5	लिंक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U93090MH2006PTC164997	G30553226
6	सुपरा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	U72250MH1991PTC060931	G30505135
7	एसकेइंडिया इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH1996PTC101424	G30596357
8	पिआरजे इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74210MH2010PTC205338	G30165294
9	ग्लोबल रिफंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U93090MH2010FTC201461	G30157630
10	वेबवैचर्स इंटरैक्टिव प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2010PTC201913	G29188604
11	कार्पण लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड	U52100MH2014PTC258028	G23174279
12	रेगन कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	U45202MH2010PTC198906	G17304510
13	माय मनी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1995PTC089494	G16882318
14	डब्लुटी एंड टी. ट्रेवल कंसलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U63040MH2005PTC157566	G15095144
15	गोल्डन लैंडर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2013PTC249437	G15115603
16	सूरति इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1983PTC031056	G14727812
17	दुबेरिआ कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH1996PTC100914	G14002547
18	ट्रियजेम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	U72300MH2012PTC237021	G13648308
19	हेल्थ इंजन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2013PTC250352	G13508585
20	स्टैंडर्ड रेप्रोग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U22219MH1982PTC027450	G11828829
21	आईडिया बॉक्स कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U92190MH2011PTC225344	G11154135
22	वर्ल्डिजिटल कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2015PTC263246	G10806461
23	सितसों शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	U74999MH2014PLC253814	G10435907
24	सुमेर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	U67190MH2011PTC213418	G10209963
25	क्वॉइन सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2013PTC251463	G10227841
26	सायबरइल्ला वर्ल्डवाइड प्राइवेट लिमिटेड	U72300MH2012PTC238746	G09899428
27	एरियन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2011PTC221403	G09884487

28	क्रेस्ट हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U93030MH2014PTC253531	G09109539
29	सनी अरोमाक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड	U01405MH2012PTC226794	G09031345
30	नैनो - टेक एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2006PTC159160	G08272106
31	एटलस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	U40300MH2011PTC223923	G07717663
32	थीम एनालिटिकल लैब प्राइवेट लिमिटेड	U24100MH2014PTC252308	G06968218
33	गौतम रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH2008PTC180195	G06241210
34	लोटस क्रीक डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U55209MH2008PTC181443	G06252522
35	तुवं सर्वम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2008PTC178750	G06124333
36	एक्सओम ऑप्टिमल्स प्राइवेट लिमिटेड	U22100MH2004PTC146781	G05789631
37	जावा सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1992PTC070242	G05474200
38	पिक्सेल इन मोशन प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2013PTC244081	G05189691
39	स्पेक्ट्रम चार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2014PTC253265	G05125257
40	अज्ञकता फैशन प्राइवेट लिमिटेड	U51494MH2008PTC185070	G04361952
41	एजीबॉन्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24100MH2010PTC199239	G02989630
42	पामर एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2013PTC245886	G00942557
43	रायकर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	U01110MH1992PTC066516	G00426213
44	माइलस्टोन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड	U93000MH2010PTC201980	G00451823
45	ब्रैनसबारौ सिक्योरिटीज एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड	U67190MH2011PTC215420	G00340331
46	सिनेज लाइफकेअर प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC234922	G00054551
47	बॉम्बे कलेण्डरिंग फैक्ट्रीज एसोसिएशन लिमिटेड	U24220MH1974GAP017819	C82318650
48	संकीरण सोलर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U40108MH2013PTC243866	C81084675
49	एमझेडएफ इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH2000PTC125328	C80735301
50	नवोदय लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2006PTC164105	C79359584
51	वेबविस्टर इन्फो सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2011PTC222234	C79174702
52	एचएसएस वाटर प्यूरिफायर प्राइवेट लिमिटेड	U41000MH2014PTC256034	C78719630
53	गुलमोहर फिल्ड्रेशन सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U29253MH2009PTC193162	C78492659
54	तिरुपति बालाजी ग्लोबल कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2010PTC198539	C77203529
55	फौकार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH1994PTC079647	C76978089
56	मिल्टन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1995PTC094770	C76351402
57	विजक्राफ्ट टेलीविज़न प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U93030MH2013PTC239837	C75728162
58	एआरएस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2013PTC239288	C74896333
59	केन्सीस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2010PTC200128	C74650748
60	श्री अर्पित पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड	U25199MH2010PTC199875	C71982607
61	शिवभी इम्पेक्स लिमिटेड	U45400MH2011PTC217326	C70473806
62	रिचमंड एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड	U35122MH2010PTC208705	C70465141
63	मेरिट मर्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड	U51109MH2009PTC192845	C68955004
64	श्री क्री ट्रेडिंग इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2005PTC156378	C67463729
65	सेंट्रल स्टील एंड एनर्जी ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U27310MH2013PTC243816	C67323972
66	सोना फर्टिलाइज़र प्राइवेट लिमिटेड	U01407MH2009PTC191349	C67116848
67	बिजमंतरा ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2011PTC213664	C67068346

68	कोम्मुनिक मल्टीमीडिया मुंबई प्राइवेट लिमिटेड	U72200MH2000PTC127750	C67029900
69	होटल श्रद्धानन्द प्राइवेट लिमिटेड	U55200MH1992PTC069966	C66797549
70	एंडी फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड	U22219MH2009PTC194624	C65733461
71	आहूजा टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	U17120MH1988PTC049772	C65365389
72	सावी टैलेंट हब प्राइवेट लिमिटेड	U80903MH2013PTC244332	C64893829
73	आरकेओ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400MH2011PTC219648	C64753379
74	सि पी एन्टरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U92100MH2008PTC177563	C63745087
75	चित्रां सोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2009PTC197637	C63310114
76	क्रॉसलिक एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2003PTC140383	C62755335
77	इंडिपेंडेंट मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड	U92100MH2008PTC186734	C62069877
78	मिनस इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH2006PTC160425	C61321857
79	टेक्नोफ्रेंज़ी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	U72300MH2012PTC235644	C60712973
80	पावर एस मल्टीकेअर प्राइवेट लिमिटेड	U30000MH2014PTC253037	C59853010
81	रेलयोनस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2014PTC257299	C59641654
82	अंडवेलथ मार्केटिंग एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड	U51109MH2008PTC184692	C58984089
83	रॉयल मीडो होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	U55204MH2013PTC247683	C58768961
84	अमृत वॉल्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U70200MH2006PTC159436	C58563388
85	जसवंत स्टील रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	U27100MH1987PTC044263	C58219510
86	गाज़ी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U45400MH2013PTC239973	C57927774
87	भट्ट एग्री कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U01119MH2006PTC164772	C57230922
88	पेरेड्रा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U70109MH1996PTC100838	C55668081
89	मेनलैंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2009PTC193946	C55054415
90	एजेएस रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2009PTC193733	C55054191
91	सुन पॉइंट होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	U55101MH1995PTC090312	C53864211
92	सीक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2013PTC248293	C53516803
93	सोलरॉ पावर प्राइवेट लिमिटेड	U40300MH2013PTC247535	C53156600
94	मिनी मेजर स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड	U92400MH2012FTC228168	C52637931
95	फाल्गुन पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U93030MH2012PTC232766	C51876662
96	देनीप कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U93090MH2009PTC194412	C51668853
97	पनवेल इंडियन लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2008PTC187411	C50868769
98	ले-टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2008PTC188859	C50222231
99	इमैस एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिकेशन (मुंबई) प्रा. लि.	U74300MH2003PTC140011	C49984354
100	आरोविर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24239MH2011PTC215569	C50008093
101	लवंडे फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U28920MH1979PTC021459	C49239932
102	चिल्फेस्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	U92140MH2007PTC171158	C49061674
103	बॉम्बे पॉक्सवेल फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड	U24239MH1979PTC021778	C48938500
104	श्री गुरुदेव दत्ता कॉन्स्ट्रू प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2011PTC212147	C48329858
105	देवगिरि बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड	U70101MH2010PTC211492	C48340202
106	रूबी गैडगेट्स प्राइवेट लिमिटेड	U72909MH2012PTC236872	C48495139
107	क्रेटा इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2014PTC255112	C47446729

108	स्ट्रीमिंग मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	U92490MH2010PTC210837	C47267125
109	फ्लेक्सिकन रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2008PTC185955	C46194122
110	बेल्लिनी फैशंस प्राइवेट लिमिटेड	U18101MH2000PTC125423	C45093531
111	सि. एम. शाह एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH1971PTC015107	C42760926
112	प्राइमा ट्रेड सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC237042	C41556143
113	सीनेटेक मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड	U92412MH2011PTC215618	C39315163
114	एएम प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	U92412MH2012PTC229750	C39316013
115	सन राइज टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी प्रा. लि.	U29260MH1989PTC052351	C39380878
116	एस आर रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड	U60100MH1996PTC100007	C39258751
117	सिक्सटीफोर स्केवअर्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH2007PTC167899	C38693602
118	अंडरकंरेंट विजुअल्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2012PTC234874	C38233896
119	सीकेएस स्टील प्राइवेट लिमिटेड	U27107MH2007PTC174701	C38093530
120	हवलदार'स नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड	U85110MH1999PTC119133	C38093969
121	रेम्मा एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2011PTC218955	C33453366
122	अवीवा एविएशन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	U99000MH2011PTC213767	C27671007
123	जूनो पब्लिक रिलेशन्स एंड कॉर्पोरेट कंसल्टेंट्स प्रा. लि.	U74140MH2012PTC227207	B76625169

एस. पी. कुमार
कंपनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

प्रारूप एसटीके 6

सार्वजनिक सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

पुणे-411004, दिनांक 17 जुलाई 2017 और 24 जुलाई 2017

सं. (1) आरओसीपी/एसटीके-6, (2) आरओसीपी/एसटीके-6 अ, (3) आरओसीपी/एसटीके-6, ब. (4) आरओसीपी/एसटीके-6, क. (5) आरओसीपी/एसटीके-6, ड (6) आरओसीपी/एसटीके-6—

क्र.सं.	सीआयएन	कंपनी का नाम
1	U00075PN2006PTC022294	इन्फो डायनामिक टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2	U01120PN2009PTC134358	पृथ्वीज एगो प्राइवेट लिमिटेड
3	U01122PN2009PTC133839	श्री गणेश पूर्ति अग्नी गोत प्राइवेट लिमिटेड
4	U01122PN2009PTC134350	कुंजीर एगो प्राइवेट लिमिटेड
5	U01122PN2010PTC138124	एम्पायर एगो प्राइवेट लिमिटेड
6	U01122PN2013PLC148445	व्हीआरव्ही इंफ्रा & एगो फार्मिंग इंडिया लिमिटेड
7	U01139PN2016PTC164389	सुरतेज एगो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
8	U01403PN2000PTC015478	एकार्था इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
9	U01406PN2011PTC138245	इनफिनिट बिओफुएल्स & एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड
10	U01407PN2014PTC151732	लोडस एगो फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड
11	U11201MH1996PTC096397	सोनिआ इन्फ्रास्ट्रक्चर & हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
12	U13204PN2004PTC019547	श्री विशाल जेवेल्लेर्स प्राइवेट लिमिटेड

13	U14200PN2013PTC145857	श्रृणीधी मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
14	U14290PN2016PTC158192	गेस्टे मिनरल & प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
15	U15135PN2001PTC016305	रघुनन्दन एग्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
16	U15323PN2004PTC019008	कृष्णा वैली ग्लूकोस मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड
17	U15422PN2012PTC142850	संजय जग्गेरी प्राइवेट लिमिटेड
18	U15490PN2011PTC139539	सोहम पूर्णन्ना प्राइवेट लिमिटेड
19	U15490PN2013PTC146017	ओरग्रीन प्राइवेट लिमिटेड
20	U15490PN2013PTC148406	वन ओ एट्थ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
21	U15500PN2007PTC130787	फ्लूइड अल्चेमिएस केवरी बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड
22	U15543PN2012PTC144157	नीराम अक्वाटेच प्राइवेट लिमिटेड
23	U17123PN2014PTC152410	वेबोवा ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
24	U18109PN2009PTC133468	शर्मा एंड संतोष पैराडाइस अप्पारेल्स प्राइवेट लिमिटेड
25	U22190PN2011PTC138660	सिंवाल मीडिया कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
26	U22190PN2013PTC148141	हिंदुस्तान पब्लिशिंग हाउस एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
27	U22212MH1995PTC089016	ऑर्बिट प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड
28	U22213PN2014PTC153467	श्रीयश पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
29	U22219PN2010PTC135966	ब्लैक पब्लिशर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड
30	U22300PN2010PTC136078	ब्लू ट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
31	U23203PN2014PTC151039	चिंतामणि टेक्नोपोवर प्राइवेट लिमिटेड
32	U23209PN2004PTC019101	संगम पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड
33	U24100PN2012PTC144903	मैक्स इनोवा हेल्थ प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
34	U24200PN2016PTC165059	पीएसआर न्यूट्रीचेम प्राइवेट लिमिटेड
35	U24232MH1996PTC101761	एचएएन उल मेडिज़िन प्राइवेट लिमिटेड
36	U24232PN2010PTC137302	इसके बिओलॉजिकल्स हेल्थकारे प्राइवेट लिमिटेड
37	U24232PN2010PTC154212	एवेन्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
38	U24233PN2003PTC017597	ईएसए हरबोमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
39	U24233PN2015PTC156261	एएनआर लिफेंसइंसेस प्राइवेट लिमिटेड
40	U24233PN2015PTC157197	हतचदता (इंटरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड
41	U24299PN2009FTC133407	प्रोकट केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
42	U25199PN2013PTC147881	प्रगति प्लास्टो पैक प्राइवेट लिमिटेड
43	U26933PN2010PTC136644	सिएनजि इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
44	U27100PN2015FTC157481	रुड्क्सिन लाइट अलॉय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
45	U27200PN2014PTC151349	मनेश अलुमिनियम शीट्स प्राइवेट लिमिटेड
46	U28110PN2010PTC137656	कंदा मेटल प्रेस्सिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
47	U28999PN2006PTC129216	पर्सिस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
48	U29195PN2006PTC022061	आदित्य इंडस्ट्रियल कैप्स प्राइवेट लिमिटेड
49	U29210PN2008PTC131334	स्कैन-एग्री इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
50	U29253PN2013PTC149549	यांत्रिक इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
51	U29299PN2005PTC020942	नाजोत्कर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
52	U29299PN2008PTC131874	एडवांस सिएनसी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

53	U29304PN2010PTC137469	सिल्वरलिने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
54	U31200PN2008PTC132826	दामिनी नेचुरल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
55	U31900PN2008PTC131827	कास्टलेट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
56	U31908PN2012PTC144703	इलेक्ट्रॉनिका स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
57	U31909PN1999PTC014115	व्ही एम मचिनेड कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
58	U31909PN2011PTC139847	मास्टेक सर्किट्स प्राइवेट लिमिटेड
59	U32106PN2009FTC152760	रोथ & रौ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
60	U33309PN2010PTC135872	कॉप्फ बीओनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
61	U34100PN2011PTC140356	डीपीजे ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
62	U34200PN2012PTC144585	मोडेना इंजन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
63	U34300PN2012PTC144702	प्रोमिनेन्ट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
64	U36100PN2010PTC136950	यशश्री स्ट्रक्चुरेस & फर्नीचर्स प्राइवेट लिमिटेड
65	U36109PN2005PTC020994	मोडस विवेदी फर्नीचर एंड लाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
66	U36900PN2012PTC145626	हेमू मैन्यूफैक्चरिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
67	U40104PN2010PTC137509	आईरिस ऊर्जा सेविंग सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
68	U40106PN2008PTC131523	क्योकिंग एनर्जी एंड अग्रोफॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड
69	U40108PN2005PTC021482	मनीष पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड
70	U40109PN2008PTC132384	पेस एनर्जी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
71	U40300PN2016PTC164630	बल्लारी सोलर प्राइवेट लिमिटेड
72	U45100PN2016OPC157902	नकुबे रॉटर्स इंडिया (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
73	U45200PN2008PTC133053	कनस्ट्रुमिड & अर्थ मोवेर्स प्राइवेट लिमिटेड
74	U45200PN2010PTC136013	रिफार्म इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
75	U45200PN2010PTC138143	यश एनविरो इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
76	U45200PN2011PTC138263	ज़ेरेब्रीअल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
77	U45200PN2011PTC140372	भगवती डेवलपमेंट कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
78	U45200PN2012PTC144431	अथर्व मल्टीकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड
79	U45200PN2013PTC147110	नोविता बुइलकों प्राइवेट लिमिटेड
80	U45200PN2013PTC147781	चैतन्य लैंडमार्क प्राइवेट लिमिटेड
81	U45200PN2013PTC148103	डिज़ाइन स्टूडियो इंटीरियर एक्सटेरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
82	U45200PN2013PTC149086	केपीआर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
83	U45200PN2013PTC149158	वास्तु निर्माण प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
84	U45200PN2014PTC150376	विक्रान्त बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
85	U45201PN1990PTC056649	तावरे कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
86	U45202PN2000PTC015554	जिंदल मित्तल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
87	U45202PN2001PTC016483	सेरेने शैल्टर्स (पुणे) प्राइवेट लिमिटेड
88	U45209PN2008PTC132349	बहिरत टेक्नोपार्क प्राइवेट लिमिटेड
89	U45209PN2011PTC138362	आरपी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
90	U45209PN2011PTC140485	ईधांत कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
91	U45209PN2012PTC142923	मेट्रोप्लेन इंफ्रा-हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
92	U45400PN2013PTC148601	यशदा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड

93	U50500PN1987PTC044635	आर्चिज गेराज पीव्हिटि एल्टिडी
94	U51101PN2013PTC148297	अर्थविश्वा ट्रेडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
95	U51225PN2001PTC016193	कराचीवाला इम्पोर्ट & एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
96	U51397PN2012PTC142294	अस्त फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
97	U51410PN2004PTC019463	जेट पेट्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
98	U51900PN2012PTC142525	विराट मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
99	U51909PN2010PTC135310	पुणे मेडिटेश एंड एगो एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
100	U51909PN2010PTC136510	मुश्क एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
101	U51909PN2011PTC138379	गॉर्जियस फिटनेस इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
102	U51909PN2012PTC141968	अफड ऐनिमल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड
103	U51909PN2012PTC144081	ग्रीनफ्रेश प्राइवेट लिमिटेड
104	U51909PN2012PTC145138	पली कसुमब्लीस एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
105	U51909PN2013PTC146104	ब्रज डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड
106	U51909PN2013PTC148964	वरेअसत्य एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड
107	U51909PN2013PTC149500	दलवी फूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
108	U51909PN2014PTC150635	बंग वैचर्स प्राइवेट लिमिटेड
109	U51909PN2016PTC165971	शिल्लक ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
110	U52110PN2005PTC021057	मैट्रिक्स रिटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
111	U52190PN2010PTC136767	मीरा हेल्थ स्टोर प्राइवेट लिमिटेड
112	U52390PN2012PTC142409	आरके स्टाइल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
113	U52399PN2013PTC145866	तम्बोली ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड
114	U52399PN2013PTC149504	किंग मेकर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
115	U54300PN1994PTC076535	आनंद ऑटो स्पर्स पार्ट्स (इंडिया) पी एलटिडी
116	U55101PN2002PTC017461	बेसिल रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड
117	U55101PN2003PTC017867	मानिका रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
118	U55101PN2012PTC143762	उस लेसुरेस प्राइवेट लिमिटेड
119	U55103MH1966PTC013446	राजहंस होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
120	U55202PN2011PTC141503	वैशाली रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड
121	U60200PN2012PTC145381	सनम सोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
122	U63022PN2006PTC021797	पुणे लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
123	U63040PN2003PTC018357	ए-वन ट्रेवल्स एंड ट्रेडलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
124	U63040PN2012PTC144109	गो वाइल्ड ट्रेवल एंड फोटोग्राफी प्राइवेट लिमिटेड
125	U63090PN2013PTC146502	एजी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड
126	U65992PN2012PTC143043	मीमोनी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
127	U65992PN2013PTC147106	मधुसटीए चित फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
128	U67190PN2010PTC135639	चन्दन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
129	U70101PN1992PTC069118	परिचय रियल एस्टेट्स पीव्हिटि एलटीडी
130	U70101PN1993PTC073196	राजदरबार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
131	U70101PN2008PTC132524	बेनु प्रॉपर्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
132	U70101PN2011PTC141547	वाइट स्वान ऑनलाइन प्रॉपर्टी सोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

133	U70102PN2006PTC128588	ऑर्बिटल रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टीज पीव्हीटि. एल्टिडी.
134	U70102PN2006PTC129379	ग्रीन एप्पल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
135	U70102PN2008PTC132571	गुड हेल्थ लैंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
136	U70102PN2014PTC153151	दिव्यांश प्रॉपर्टीज एंड रॉटर्स प्राइवेट लिमिटेड
137	U70102PN2014PTC153173	अजिंक्यन्स रियल्टी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
138	U70200MH1995PTC091137	अॅरडेंट सेरा-चेम प्राइवेट लिमिटेड
139	U70200PN2012PTC145137	स्टर्लिंग टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड
140	U72100PN2004PTC129174	मेट्रीस्लिने सॉफ्टवेयर एंड वेब डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
141	U72200MH1995PTC086077	साइबरस्पेस सिस्टम्स एंड सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
142	U72200PN1995PTC089585	एवेरा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
143	U72200PN2001PTC016242	अप्सरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
144	U72200PN2001PTC016553	क्नॉलेजेंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
145	U72200PN2003PTC018262	अप्लिक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
146	U72200PN2005PTC020214	स्मार्टसोर्सर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
147	U72200PN2007PTC130157	अक्नेटिऑ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
148	U72200PN2008PTC132061	रॉक टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
149	U72200PN2008PTC133072	सेज मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड
150	U72200PN2010PTC136595	इंटरिटी आईटी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
151	U72200PN2010PTC136614	ग्लाइड इंटेलेक्चुअल सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
152	U72200PN2010PTC137108	ऐथौघ्ट्स आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
153	U72200PN2010PTC137977	कोनसीसे सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
154	U72200PN2011PTC141058	गुलवे इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
155	U72200PN2011PTC141441	सुविराज आईटी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
156	U72200PN2012PTC143515	स्टार कंप्लायंस आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
157	U72200PN2013PTC148724	दमिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
158	U72200PN2015OPC154507	संपुसकड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
159	U72200PN2015PTC156140	ओफफेरलियन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
160	U72300PN2013PTC147375	तरदेवीसे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
161	U72400PN2008PTC133069	ग्रीन आईटी सोल्यूशन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
162	U72400PN2012PTC144356	अप्पीलिटिक्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
163	U72900PN2001PTC016034	आशलैंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
164	U72900PN2005PTC020567	ईमार्केटबसे सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
165	U72900PN2005PTC021557	वर्कमैथोडस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
166	U72900PN2006PTC022026	उर्जित टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
167	U72900PN2009PTC133562	क्राफटोरी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
168	U72900PN2009PTC134526	जिनराज सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
169	U72900PN2009PTC134826	रिक्स इन्फार्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
170	U72900PN2009PTC134948	वेबोनिसे सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
171	U72900PN2010PTC135793	अडाप्टिव ३ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
172	U72900PN2010PTC136981	बिट्स सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

173	U72900PN2010PTC137563	नॉलेज स्क्वायर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
174	U72900PN2010PTC137597	कडफेम टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
175	U72900PN2011PTC140131	एक्सेल्लिस टचसोफ्ट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
176	U72900PN2012PTC142348	वेबोलूशन टचवेनटुरे प्राइवेट लिमिटेड
177	U72900PN2012PTC143691	अप्पसवारे सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
178	U72900PN2012PTC144516	स्मार्ट डिजिटल माइक्रोवेव सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
179	U72900PN2013PTC146219	इन्वेन्टिक्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
180	U72900PN2013PTC146270	ईलेवेनसॉफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
181	U72900PN2013PTC146852	राजीगरे प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड
182	U72900PN2013PTC147331	एक मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड
183	U72900PN2013PTC148761	कुरा आईटी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
184	U72900PN2013PTC149003	१. डायोनिसस इंफोकॉम प्राइवेट लिमिटेड
185	U72900PN2013PTC149225	वीवी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
186	U72900PN2013PTC149742	इन्नोदेसिरे सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
187	U72900PN2014PTC150155	परार्थ इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
188	U72900PN2014PTC150512	पैट सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
189	U72900PN2015PTC157580	आद्रिका डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
190	U72900PN2016FTC164178	कमो सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
191	U72900PN2016PTC158036	ईचिबैन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
192	U72900PN2016PTC164697	गर्माने आईटी ऐप्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
193	U74140PN1994PTC077485	एसेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स पिक्विटि एलटिडी
194	U74140PN2006PTC129394	जउने कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
195	U74210PN2008PTC132495	सिग्नस इंजीनियरिंग सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
196	U74210PN2009PTC134878	हय्द्रोकॉ टेक्नोक्रेट्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
197	U74900PN2008PTC132065	सैलीला कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
198	U74900PN2008PTC132754	बेनु प्लेसमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
199	U74900PN2009PTC133631	एपल्स & ओरांगेस एक्सपीरियंस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
200	U74900PN2009PTC133812	अथश्री टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
201	U74900PN2009PTC133848	वेल्स आर्ट गैलरी प्राइवेट लिमिटेड
202	U74900PN2009PTC134067	क्यॉनइससेउर ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड
203	U74900PN2009PTC134611	डीएनए एचआर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
204	U74900PN2010PTC136029	पी & के कॉर्पोरेट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
205	U74900PN2010PTC137226	एंब्लेम ५ मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड
206	U74900PN2010PTC137318	मॉर्फ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
207	U74900PN2010PTC137390	विहान इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
208	U74900PN2010PTC138144	सुमेरु फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड
209	U74900PN2011PTC138180	डिप्टेरा फूटवारे एंड गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
210	U74900PN2011PTC138519	दज मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
211	U74900PN2011PTC138566	फ्यूचर -प्रूफ बिज़नेस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
212	U74900PN2011PTC138718	टॉरक्वे ऑटो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

213	U74900PN2011PTC138829	एव्हिजे इंजीनियरिंग & मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
214	U74900PN2011PTC139018	स .बी .शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
215	U74900PN2011PTC139464	मविजय कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
216	U74900PN2011PTC139651	गोर एक्सिम एंड शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड
217	U74900PN2011PTC140280	मानगो डेस्क सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
218	U74900PN2011PTC141594	ब्लुएब्रीडगे सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
219	U74900PN2012PTC142190	न्यस्त पेस्ट कण्ट्रोल प्राइवेट लिमिटेड
220	U74900PN2012PTC142917	होलिस्टिक ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड
221	U74900PN2012PTC143502	अथर्व कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
222	U74900PN2012PTC143553	बुमला सोशल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
223	U74900PN2012PTC143768	डायनामिक ऑटोटेच प्राइवेट लिमिटेड
224	U74900PN2012PTC144399	फोर्मेटिका कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
225	U74900PN2012PTC144451	मेडिकल नोट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
226	U74900PN2013PTC146449	पवनराज डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड
227	U74900PN2013PTC147276	विघ्नहर पेस्ट कण्ट्रोल प्राइवेट लिमिटेड
228	U74900PN2013PTC147292	अलकेमिस्ट सेल्स & मार्केटिंग सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
229	U74900PN2013PTC148324	श्री बालाजी मीडिया एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
230	U74900PN2013PTC148614	नव लाइट आस ब्लॉक प्राइवेट लिमिटेड
231	U74900PN2013PTC148840	हिन्दवी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
232	U74900PN2014PTC150164	मिरर इवेंट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
233	U74900PN2014PTC150437	वैभव सोलर पॉवर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
234	U74900PN2014PTC151215	जेटवेसिटी प्राइवेट लिमिटेड
235	U74900PN2014PTC151879	गोस्विफ्ट एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
236	U74900PN2014PTC152324	बिश्वमित्रा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
237	U74900PN2014PTC152392	श्री मरीचि एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
238	U74900PN2014PTC152581	पाईवुड्स टेक्नोलॉजीज & फ्लीट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
239	U74900PN2014PTC152920	तमेद हैल्थकारे प्राइवेट लिमिटेड
240	U74900PN2014PTC153135	फ्रेग्नेन्स स्टोर प्राइवेट लिमिटेड
241	U74900PN2015PTC153610	मानवसमिलेस एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड
242	U74900PN2015PTC153723	बाबा आय इ-कॉम प्राइवेट लिमिटेड
243	U74900PN2015PTC155320	विविका आर्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
244	U74900PN2015PTC155586	प्रुडेंटरोनिक सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
245	U74900PN2015PTC156141	कॉम्पार्ट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
246	U74920PN2015PTC156350	नरेंद्र इंटीग्रेटेड मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड
247	U74994PN2007PTC130791	करमपुरी इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
248	U74999PN2001PTC016011	अॅन्सेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
249	U74999PN2007PTC130566	ग्रीनएनवीरो सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
250	U74999PN2009PTC135176	पलमरियम कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
251	U74999PN2009PTC135189	यूनिक बिज़नेस सोल्यूशन्स & अंडविसोर्स प्राइवेट लिमिटेड
252	U74999PN2010PTC135377	वॉलपेपर कम्यूनिकेशन्स एंड दसिग्नस प्राइवेट लिमिटेड

253	U74999PN2011PTC141391	क्सेगो एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
254	U74999PN2012PTC144711	अॅक्यूमें बीजसोल प्राइवेट लिमिटेड
255	U74999PN2013PTC148108	बालाजी ट्रेडिंग कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
256	U74999PN2013PTC148784	तनय ड्रिलिंग सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
257	U74999PN2013PTC149103	ओलिव९२ स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड
258	U74999PN2014OPC153056	पुरपलेबाग एकमेरे प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
259	U74999PN2014PTC150472	रौद्र प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
260	U74999PN2014PTC151957	साइबर कनेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
261	U74999PN2014PTC152677	कैपेला ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
262	U74999PN2014PTC152868	श्रीयश हाउसिंग सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
263	U74999PN2015PTC155918	कृषक संस्कृति एगो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
264	U74999PN2015PTC156854	बिग्रेको लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
265	U74999PN2016PTC158541	सोलरिका पॉवर इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
266	U74999PN2016PTC164958	स्नॉबर प्राइवेट लिमिटेड
267	U74999PN2016PTC166969	कैसिस टेक्नोलॉजीज सलूशन प्राइवेट लिमिटेड
268	U80220PN2010PTC136384	भाषिक एडुकेशनस प्राइवेट लिमिटेड
269	U80302PN2007PTC131187	सह्याद्रि इंजीनियरिंग अकादमी प्राइवेट लिमिटेड
270	U80302PN2011PTC139824	वृषभ कोचिंग क्लासेज प्राइवेट लिमिटेड
271	U80903PN2011PTC140915	प्रोफिसिएंट लर्निंग अकादमी प्राइवेट लिमिटेड
272	U85100PN2010PTC137081	इम्पैक्ट मेडिटेश सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
273	U85100PN2012PTC143612	धारस्कर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड
274	U85100PN2013PTC149129	इलाज हैल्थकारे प्राइवेट लिमिटेड
275	U85100PN2014PTC150237	साथी हैल्थकारे प्राइवेट लिमिटेड
276	U85110PN2005PTC020200	पूजा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
277	U85110PN2008PTC131619	ॐ चैतन्य हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड
278	U85191PN2016PTC158307	नीलव हैप्पी ओल्ड ऐज होम & सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
279	U85195PN2005PTC021110	न -टर्मिनस बिओमेडीकल टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
280	U92100PN2011PTC141287	ग्रीन टीवी प्राइवेट लिमिटेड
281	U92413PN2012PTC145097	सर्ग एंटरटेनमेंट ३६० प्राइवेट लिमिटेड
282	U93000PN2011PTC140945	अर्सा वेर्ड प्राइवेट लिमिटेड
283	U93000PN2011PTC141817	निक्स इंटरनेशनल लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड
284	U93000PN2013PTC148031	वर वर्सटाइल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
285	U93000PN2014OPC153358	फार्म फीचर्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)

(1) इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार को ऊपर उल्लिखित कंपनियों से कंपनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त किया है कि वे उनकी कंपनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कंपनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारबार नहीं कर पायी है और इस अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त करने का आवेदन नहीं किया है या कंपनी ने निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कंपनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कंपनी रजिस्टर से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

(2) तदनुसार कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्टर से ऊपर उल्लिखित कंपनियों का नाम हटाने का प्रस्ताव करता है।

(3) यदि किसी को रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर ऊपर उल्लिखित कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकता है।

अमोल शिंदे
उप कंपनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

एलएलपी नियम, 2009 और निम्नलिखित एलएलपी के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 26 जुलाई 2017

सं. आरओसी/एलएलपी-24/पब्लिकेशन/2017-18/4161—लिमिटेड लायाबिलिटी पार्टनरशिप नियम, 2009 के नियम 37 के उपनियम 3 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित एल.एल.पी. के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त एल.एल.पी. विघटित हो गई हैं :—

क्र. सं.	एलएलपी कम्पनी के नाम	एलएलपीइन
1	फीओ कोटनयार्न एलएलपी	एएई-5265
2	थेटा वेल्थ एडवाइजर्स एलएलपी	एएए-2207
3	सन पीगमेन्ट्स एलएलपी	एएडी-5580
4	होप्स एकाउन्टींग सर्विसेस एलएलपी	एएजी-0670
5	डीजीजेन इन्फोटेक एलएलपी	एएजी-1213
6	कांकरीया एक्षपोर्ट्स एलएलपी	एएबी-1799
7	ब्रीजनेट सॉफ्टवेयर एलएलपी	एएए-0567
8	सकीत कोमर्शियल सर्विसेस एलएलपी	एएसी-2549
9	शील्प होलमार्कींग सेन्टर एलएलपी	एएई-7478
10	वेद वोटर टेक्नोलोजी एलएलपी	एएजी-2399
11	रेशरेईट मीडिया एलएलपी	एएसी-5991
12	वेयर इन्जीनीयरींग एलएलपी	एएजी-0219
13	सेन्ट्रोड डीजाईन एण्ड मैनेजमेन्ट एलएलपी	एएसी-3151
14	सोनेरा स्वीचगेयर एलएलपी	एएएफ-4265
15	समीक्षा एडवाइजर्स लीमीटेड एलएलपी	एएई-8394
19	शीवास इन्फ्राजोन एलएलपी	एएबी-6929
17	गायत्री कोटस्पीन पार्क एलएलपी	एएबी-4947
18	विहा केमीकल एलएलपी	एएई-8885

वी. के. खूबचंदानी
कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम 2008 तथा निम्नलिखित एल.एल.पी. के मामले में

कोलकाता, दिनांक 27 जून 2017

सं. क0र0/प0व0/एल.एल.पी-75/2014/488—उपरोक्त विषय पर भारत के राजपत्र में अधिसूचित हेतु एल.एल.पी. नियम 2009 का नियम 37(3) के साथ पठित लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम 2008 की धारा 75 के अन्तर्गत निम्नलिखित एल.एल.पी. के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए हैं तथा वे एल.एल.पी. विघटित कर दी गई हैं :—

क्र.सं.	एलएलपीआईएन	एलएलपी का नाम
1	AAB-6203	ईओ इवेंट्स एक्ट एलएलपी
2	AAE-2096	गनपॉइंट टेक्नोलॉजीस एलएलपी
3	AAD-5382	इंफ्रा इक्विपमेंट्स सोलुशन एलएलपी
4	AAD-3018	कृष्णागोपाल रियल्टी डेवेलपर्स एलएलपी
5	AAB-2093	पिअनेता कॉमर्स एलएलपी
6	AAC-5617	पीकेवीके प्रॉपर्टीज एलएलपी
7	AAC-5464	पीकेवीके रियल एस्टेट एलएलपी
8	AAD-5384	सिमकोके पावर एलएलपी
9	AAA-7537	एस एस टर्क्वाइज़ हैंडक्राफ्टेड ज्वेल्स एलएलपी
10	AAB-0054	क्षेप्फिसिएन्सी कंसल्टिंग एलएलपी

सौरभ गौतम
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम 2008 तथा निम्नलिखित एल.एल.पी के मामले में

कोलकाता, दिनांक 25 जुलाई 2017

सं. क0र0/प0व0/एल.एल.पी-75/2014—एल.एल.पी. नियम, 2009 का नियम 37(3) के साथ पठित लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम, 2008 की धारा 75 के अन्तर्गत निम्नलिखित 28 एल.एल.पी. के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए गए हैं तथा वे एल.एल.पी. विघटित कर दी गई हैं :—

क्र0 स0	एलएलपीआईएन	एलएलपी का नाम
1	AAC-5206	अक्केशन ड्वेलिंग्स एलएलपी
2	AAC-5520	एरौजल बिल्डवेल एलएलपी
3	AAC-5281	एरौजल इन्फ्राबिल्डवेल एलएलपी
4	AAC-5516	एरौलाइनहोम्सएलएलपी
5	AAD-1821	अयनविता ट्रेडिंग एलएलपी
6	AAC-5284	बेगोनिया होम्स एलएलपी
7	AAC-5214	कंटेंट रियलटेक एलएलपी
8	AAC-5511	कन्वेंशन हाईराइज एलएलपी
9	AAC-5535	कन्वेंशन रियल्टी एलएलपी
10	AAC-5521	डार्टर्स बिल्डमार्ट एलएलपी
11	AAC-5512	डेकोरम बिल्डवेल एलएलपी
12	AAC-5267	फ्रीसिआ रियलटर्स एलएलपी

13	AAC-5352	ग्लीम रियलकोन एलएलपी
14	AAC-5221	गोल्डनरोड बिल्डमार्ट्स एलएलपी
15	AAC-6081	गोल्डनरोड रियलटर्स एलएलपी
16	AAC-5217	हीरोन इवेलिंग्स एलएलपी
17	AAC-5513	लिमपीड बिल्डवेल एलएलपी
18	AAC-5353	लिमपीड रियलटर्स एलएलपी
19	AAC-5514	लोफटी रियलकोन एलएलपी
20	AAC-5264	लूस हाईराइज एलएलपी
21	AAC-5210	मैलो बिल्डकोन एलएलपी
22	AAC-6082	मैलो इवेलिंग्स एलएलपी
23	AAC-5304	मिमोसा इंफ्राबिल्ड एलएलपी
24	AAC-5224	पैन्सी इवेलिंग्स एलएलपी
25	AAC-5225	पैन्सी रियलकोन एलएलपी
26	AAC-5261	पेटूनिया निकेतन एलएलपी
27	AAC-5208	सल्विया बिल्डवेल एलएलपी
28	AAC-5865	उपसर्ज हाइट्स एलएलपी

सौरभ गौतम
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

लिमिटेड लायाबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम 2008 और निम्नलिखित एलएलपियों के के बारे में

कोच्चि-682021, दिनांक 25 मई 2017

सं. आरओसी/के/एलएलपि/2017/21621—एलएलपी नियम 2009 के नियम 37(3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित एलएलपियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त एलएलपी विधटित हो गई हैं :—

क्रम सं.	एलएलपी पंजीकरण नंबर	एलएलपी का नाम
1	AAA-6088	बोस्टन हेल्थ नटवर्क एलएलपी

ए सेहर पोन्नराज
कंपनी पंजीयक
केरल

लिमिटेड लायाबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम 2008 और निम्न लिखित एलएलपियों के के बारे में

कोच्चि-682021, दिनांक 6 जुलाई 2017

सं. आरओसी/के/एलएलपि/2017/21620—एलएलपी नियम 2009 के नियम 37(3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित एलएलपियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त एलएलपी विधटित हो गई हैं :—

क्रम सं.	एलएलपी पंजीकरण नंबर	एलएलपी का नाम
1	AAA-7350	मेट्रो ग्रैन्स एलएलपी
2	AAB-4526	आरएचएल विशन इन्टरआक्टिव एलएलपी
3	AAC-2745	गैटस इण्डिया प्रोजेक्ट्स एलएलपी
4	AAD-9028	जी6 इनफोलाब एलएलपी
5	AAB-1647	हापीबेरी टेकनोलजीस एलएलपी
6	AAC-5981	लोटसडेस टेकनोलजी सोल्युशन्स एलएलपी

7	AAE-0167	परमकुममविला ट्रेडर्ज एलएलपी
8	AAB-8455	लैम स्पैसस एलएलपी
9	AAB-0070	कोचसिस इनफो सोलुशन्स एलएलपी
10	AAB-3304	दियुन्द सोलुशन्स एलएलपी
11	AAB-3333	डि स्वीच एलएलपी
12	AAB-5038	टेल्लनीस टेकनोलजीस एलएलपी
13	AAC-3938	क्लीयरवे इन्टीरियर्स एलएलपी
14	AAA-3201	गो ट्रान्स इन्टरनाशनल ट्रेडर्ज एलएलपी
15	AAA-1496	केयसनस डिवलपर्स एलएलपी
16	AAA-4021	वेलज आफ पेट्रोकेम टेकनोलजी एलएलपी
17	AAA-3125	फिनोची सोलुशन्स एलएलपी
18	AAC-6094	शेलोयिड सिसटमस एलएलपी
19	AAB-8027	सेयिस्टार मानेजमेन्ट कनसलटिंग एलएलपी
20	AAA-4261	सौथनेट कंप्यूटर्स एलएलपी
21	AAC-1457	ओनग्राब पिचल अडवरटैसिंग एलएलपी

ए सेहर पोन्नराज
कंपनी पंजीयक
केरल

लिमिटेड लायाबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम 2008 और निम्नलिखित एलएलपियों के बारे में
कोच्चि-682021, दिनांक 19 जुलाई 2017

सं. आरओसी/के/एलएलपी/2017/21654—एलएलपी नियम 2009 के नियम 37(3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित एलएलपियों के नाम आज राजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त एलएलपी विधटित हो गई हैं :—

क्रम सं.	एलएलपी का नाम	एलएलपी पंजीकरण नंबर
1	अलहिन्द अडवेनचर टूरज एलएलपी	AAE-7670
2	ओल टैम नोवलटी इनफो एडियास एलएलपी	AAB-9113
3	स्टार्टअप विलेज बिसिनेस इनक्यूबेशन सर्विसस एलएलपी	AAA-8248
4	स्टार्टअप विलेज बिसिनेस मानेजमेन्ट सर्विसस एलएलपी	AAB-0586
5	आन्डा टेकनोलजी - कनसलटिंग एलएलपी	AAB-0506
6	सलीम असोसियेट्स रियालटर्स एलएलपी	AAE-2899
7	असाही मार्केटिंग एन्टरप्राइस एलएलपी	AAA-0392
8	रुटस फरनिशिंग सोलुशन्स एलएलपी	AAB-9402
9	ट्रस्टवर्तीनंबर1 स्टोक ब्रोकिंग एण्ड अडवैसरी एलएलपी	AAB-9510
10	स्टारवन टूर सर्विसस एलएलपी	AAE-0169
11	मासबिबिजे एनरजी कनसलटन्ट्स एलएलपी	AAC-5983
12	सिक्सन्ट टेकनोलजीस एलएलपी	AAC-9880
13	डी-केबाह ग्रिल हौस एलएलपी	AAC-5074
14	परंबारा आडस एलएलपी	AAE-5293
15	नोवलटी रिहाब लाबस एलएलपी	AAE-8016
16	ऐसलवर्क लाबस एलएलपी	AAE-7908
17	कियुम्मा टेकनोलजीस एलएलपी	AAC-4762
18	अप्पोलो गोलड तलाशरी एलएलपी	AAA-1364
19	अप्पोलो गोलड तिरूर एलएलपी	AAA-1409
20	अप्पोलो गोलड होलसेल एण्ड मानुफाक्चर एलएलपी	AAB-0291
21	हैलैन कारस एलएलपी	AAA-3900
22	पिटिपि ग्रुप एलएलपी	AAB-3919

23	पूवत अकुवा सोलुशन्स एलएलपी	AAE-8217
24	ऐबोलट नेटवर्क एलएलपी	AAD-1709

ए सेहर पोन्नराज
कंपनी पंजीयक
केरल

कंपनी अधिनियम 1956 और निम्न लिखित कंपनियों के बारे में

कोच्चि-682021, दिनांक 25 जुलाई 2017

सं नोटिस 560 (5)/ एफटिडि/21668/2017—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्न लिखित कंपनियों के नाम आज राजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कंपनी विधित हो गई हैं।

क्रम सं.	कंपनी का नाम	सिन /एलएलपिन/एफसिआरएन	एसआरएन
1	क्रिस्टलैन चिटस प्रैवट लिमिटेड	U65992KL2012PTC031569	G31556657
2	अनन्तपुरी कडिटस एण्ड लीसिंग कंपनी प्रैवट लिमिटेड	U65921KL1996PTC010125	G30223366
3	नित्याप्रकाशिनि चिटस प्रैवट लिमिटेड	U65992KL2015PTC038863	G24712358
4	चिनोटा केमिकलस प्रैवट लिमिटेड	U24299KL1986PTC004598	G15954373
5	पि मार्ट मार्केटिंग प्रैवट लिमिटेड	U52190KL2000PTC014431	G14456305
6	काचट होलडिंग्स प्रैवट लिमिटेड	U67120KL1996PTC009917	G11014552
7	एबियन टेकनोलजीस प्रैवट लिमिटेड	U72200KL2012PTC031479	G10421295
8	प्रोमाग 55 होमस प्रैवट लिमिटेड	U70100KL2012PTC032584	G09447665
9	अमोग शिप यार्ड प्रैवट लिमिटेड	U35100KL2011PTC028456	G07115975
10	आरटीस-पिपिल मानपवर मानेजर्स प्रैवट लिमिटेड	U74910KL2010PTC026226	G04017216
11	टेलिस प्रोपरटीस प्रैवट लिमिटेड	U70100KL2007PTC021286	G02147536

ए सेहर पोन्नराज
कंपनी पंजीयक
केरल

एलएलपी अधिनियम, 2008 और निम्नलिखित एलएलपी के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 20 जुलाई 2017

सं. क0/र0/शि0/560(5)/2016/839—एलएलपी नियम की धारा (1) नियम 37 के तहत सीमित दहिति भदधारी के अनुसार यह सूचना दी जाती है की यहा दिनांक से एक महीना के बाद निम्नलिखित एलएलपी का नाम जब तक कारण दर्शाय न जाय तो वोक्त नियम के (1) की नियम 37 के अनुसार उनके नाम एलएलपी नियम 2009 अनुसार रैजिस्ट्रार से काट दिया जायगा :—

SLNO	Name of Company	CIN
1	एकसमीन ईस्टर्न क्रफ्ट्स एलएलपी	AAC5244
2	एकसमीन ब्रह्मपुत्र मार्केटीर्स एलएलपी	AAA 0796

चंदन कुमार
कंपनी रजिस्ट्रार
शिलांग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DIRECTORATE GENERAL, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE)

New Delhi-110003, the 20th July 2017

No. O.II.4022/15-Pers-DA-6—Consequent on acceptance of resignation by the competent authority, Dr. Ashu Upendra Dixit, Medical Officer (Asstt. Comdt.), IRLA No. 10549 of 41 Bn, CRPF has relinquished the charge of his post in the afternoon of 15/07/2017. Accordingly, his name is deleted from the rolls of the Force w.e.f. 15/07/2017 (AN).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG (Pers)

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-03, the 3rd July 2017

No. E-16013/Dep-IPS/IG/2017/Pers-II/1312—The President is pleased to appoint Shri Anurag, IPS (TR:1994) as Inspector General in Central Industrial Security Force (CISF) on 03.07.2017 (Forenoon) on lateral shift basis from BPR&D New Delhi to CISF for a period upto 24.07.2021 i.e. balance tenure and until further orders whichever event takes place earlier.

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

The 7th July 2017

No. E- 38013/01/NOTI/GOs/2017/Pers.I/342—The President is pleased to appoint the following Dy. Commandants (Fire), on regular promotion to the rank of Commandants (Fire) in the pay Matrix Level-12 Rs. 78,800-2,09,200/- in CISF with effect from the date noted against them :—

S.No.	Name of Officer (Shri)	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Commandants (Fire) on regular basis
1.	NARAHARI ROUT	FHQRs NEW DELHI (Fire Branch)	01.07.2017/FN
2.	SIDDHARTHA RAHA	FSTI NISA HYDERABAD	28.06.2017/FN

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
(OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA)

New Delhi-110124, the 9th May 2017

No. 1828-GE-I/13-2006(Vol.-III)—The following IA&AS officers have retired on superannuation from government service from the date shown against their names :—

Sl. No.	Name of the officer and designation S/Shri/Ms.	Date of retirement
1.	M.K. Biswas, Director General of Audit, Central Receipt, New Delhi	Retirement on superannuation wef. 30.04.2017 (AN)
2.	M. K. Sanal, Director, O/o the Principal Director of Audit, Central, Bengaluru	Retirement on superannuation wef. 30.04.2017 (AN)
3.	Ms. P.A. Helen, Senior Deputy Accountant General, O/o the Principal Accountant General (E&RSA), Kerala, Thiruvananthapuram	Retirement on superannuation wef. 30.04.2017 (AN)
4.	S.S. Parmar, Director, O/o the Principal Director of Commercial Audit & Ex-officio, Member of Audit Board - IV, New Delhi at Branch - Chandigarh	Retirement on superannuation wef. 30.04.2017 (AN)

PURUSHOTTAM TIWARY
Principal Director (P)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(ECONOMIC & REVENUE SECTOR AUDIT), ODISHA

Bhubaneswar, the 5th July 2017

E.O. No.-01(No. Admn (E&RSA)/2-8-Group-“B”-Vol-VI/2017-18/424)—In pursuance of Headquarters Sectional Office Order No. CA-I/Admn/53 dated 01.06.2017, the following Audit Officer (Commercial) on his promotion has assumed charge as Senior Audit Officer (Commercial) in the Pay Band -3, in the scale of pay ₹ 15,600—39,100/- with grade pay of ₹ 5,400/- (now revised to level -10: 56,100—1,77,500/-) with effect from the date as mentioned below in commercial Audit Wing of the O/o the Principal Accountant General (E&RSA), Odisha, Bhubaneswar :—

Sl. No.	Name of the Audit Officer (Commercial) S/Shri	Date of taking over charge as Senior Audit Officer (Commercial)
1	Nihar Ranjan Sahoo	27.06.2017 FN

The promotion to the cadre of Senior Audit Officer (Commercial) is subject to the final decision of Hon'ble CAT/High Court/Supreme Court in the cases, if any, sub-judice in Tribunals/Courts and without prejudice to the claims of their seniors.

He may exercise his option regarding fixation of pay in terms of GSR 622 (E) of Ministry of Finance dated 29.08.2008.

Sd./- ILLEGIBLE
Deputy Accountant General (Admn)

MINISTRY OF MINES
(INDIAN BUREAU OF MINES)

Nagpur, the 19th July 2017

No. A-19012/590/2017-Estt. A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, Shri S. G. Bansod, Senior Technical Assistant (ME), is promoted to the post of Assistant Mining Engineer in Indian Bureau of Mines, Nagpur, w.e.f 01.06.2017 (F.N.).

SANJAY KUMAR SINGH
Administrative Officer
for Controller General

No. A-19012/591/2017-Estt. A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, Shri M.D. Kalwit, Senior Technical Assistant (ME), is promoted to the post of Assistant Mining Engineer in Indian Bureau of Mines, Nagpur, w.e.f 01.07.2017 (F.N.).

SANJAY KUMAR SINGH
Administrative Officer
for Controller General

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
(OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES)

In the matter of LLP Rules, 2009 and of the following LLPs

Chandigarh, the 25th July 2017

No. ROC/LLP/2017—Notice is hereby given pursuant to Rule 37(3) of LLP rules, 2009 that the name of following LLPs has this day been struck off from the Register and the said LLPs are dissolved:—

Sl.No.	LLP No.	Name of LLP	SRN
1	AAD-1199	X TO Y LOGISTICS LLP	M02028538
2	AAB-7327	HARICO HEALTH LLP	M02567568
3	AAB-0219	KIITOS WEBSCAPE FASHIONS LLP	M02766392
4	AAA-9320	WEBEQUATOR SOLUTIONS LLP	M02848455
5	AAD-1048	BELFFEN FASHION LLP	M02912301
6	AAD-8841	VIZALLY SECURITY & STAFFING LLP	M03266103

7	AAA-7524	FUTURETEC INDIA LLP	M03283678
8	AAB-0012	DR. G DIAGNOSTIC LLP	SUO MOTO UNDER RULE 37 OF LLP RULES
9	AAA-9497	NAVIGATOR INFRASTRUCTURE LLP	SUO MOTO UNDER RULE 37 OF LLP RULES
10	AAB-0369	SOUTH ASIA POST LLP	SUO MOTO UNDER RULE 37 OF LLP RULES
11	AAA-1675	PRV PROPERTIES LLP	SUO MOTO UNDER RULE 37 OF LLP RULES
12	AAB-1012	GEOSPATIAL & ENVIORNMENTAL MANAGEMENT SERVICES LLP	SUO MOTO UNDER RULE 37 OF LLP RULES

V. G. NIPANE
Asstt. Registrar of Companies
Punjab & Chandigarh

In the matter of companies Act, 1956 and of the following companies

Mumbai-400002, the 21st July 2017

No. ROC/560/FTE,2011/151—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of the following Companies have this day been struck off the Register of Companies from the date of this publication. These companies shall stand dissolved :—

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
1	OLIVE BROADBAND PRIVATE LIMITED	U64100MH2014PTC256566	G31612336
2	NI-TA INVESTMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U65990MH1987PTC043416	G31651821
3	THEGREATLEAGUE.COM PRIVATE LIMITED	U72300MH2012PTC238798	G31653157
4	ADRC HEALTH CARE LIMITED	U85110MH1995PLC092076	G31164155
5	LINKS CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED	U93090MH2006PTC164997	G30553226
6	SUPRA SOFTWARE PRIVATE LIMITED	U72250MH1991PTC060931	G30505135
7	SKINDIA INTERNET PRIVATE LIMITED	U72900MH1996PTC101424	G30596357
8	PRJ ENGINEERING & CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74210MH2010PTC205338	G30165294
9	GLOBAL REFUND INDIA PRIVATE LIMITED	U93090MH2010FTC201461	G30157630
10	WEBVENTUROUS INTERACTIVE PRIVATE LIMITED	U72900MH2010PTC201913	G29188604
11	KARPAN LIFESTYLE PRIVATE LIMITED	U52100MH2014PTC258028	G23174279
12	REGAN CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45202MH2010PTC198906	G17304510
13	MY MONEY INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC089494	G16882318
14	W.T. & T. TRAVEL CNSUTANTS PRIVATE LIMITED	U63040MH2005PTC157566	G15095144
15	GOLDEN LADDER CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74900MH2013PTC249437	G15115603
16	SUARTI INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U65990MH1983PTC031056	G14727812
17	DUBERIA CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U74140MH1996PTC100914	G14002547
18	TRIGEM SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72300MH2012PTC237021	G13648308
19	HEALTHENGINE SERVICES PRIVATE LIMITED	U74120MH2013PTC250352	G13508585
20	STANDARD REPROGRAPHICS PRIVATE LIMITED	U22219MH1982PTC027450	G11828829
21	IDEA BOX COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	U92190MH2011PTC225344	G11154135

22	WORLDIGITAL COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	U74120MH2015PTC263246	G10806461
23	SITSON SUGAR & ALLIED INDUSTRIES LIMITED	U74999MH2014PLC253814	G10435907
24	SUMER FINANCE PRIVATE LIMITED	U67190MH2011PTC213418	G10209963
25	QUOIN SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900MH2013PTC251463	G10227841
26	CYBERILLA WORLDWIDE PRIVATE LIMITED	U72300MH2012PTC238746	G09899428
27	ARIAN IMPEX PRIVATE LIMITED	U74900MH2011PTC221403	G09884487
28	CREST HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED	U93030MH2014PTC253531	G09109539
29	SUNNY AROMACRAFT PRIVATE LIMITED	U01405MH2012PTC226794	G09031345
30	NANO - TECH AND RESEARCH PRIVATE LIMITED	U72900MH2006PTC159160	G08272106
31	ATLAS ENERGY PRIVATE LIMITED	U40300MH2011PTC223923	G07717663
32	THEME ANALYTICAL LAB PRIVATE LIMITED	U24100MH2014PTC252308	G06968218
33	GAUTAM REALTY PRIVATE LIMITED	U70100MH2008PTC180195	G06241210
34	LOTUS CREEK DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED	U55209MH2008PTC181443	G06252522
35	TUVAM SARVAM TRADING PRIVATE LIMITED	U51909MH2008PTC178750	G06124333
36	AXIOM OPTIMALS PRIVATE LIMITED	U22100MH2004PTC146781	G05789631
37	JAVA SECURITIES AND FINANCE PRIVATE LIMITED	U67120MH1992PTC070242	G05474200
38	PIXEL IN MOTION PRIVATE LIMITED	U74120MH2013PTC244081	G05189691
39	SPECTRUM CHARTS PRIVATE LIMITED	U74120MH2014PTC253265	G05125257
40	AZAKTA FASHION PRIVATE LIMITED	U51494MH2008PTC185070	G04361952
41	EZEBOND CHEMICALS PRIVATE LIMITED	U24100MH2010PTC199239	G02989630
42	PAMOR ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74120MH2013PTC245886	G00942557
43	RAIKAR BUILDERS PRIVATE LIMITED	U01110MH1992PTC066516	G00426213
44	MILESTONE PLANNERS PRIVATE LIMITED	U93000MH2010PTC201980	G00451823
45	BRAINSBORROW SECURITIES & CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U67190MH2011PTC215420	G00340331
46	SYNAGE LIFECARE PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC234922	G00054551
47	BOMBAY CALENDERING FACTORIES ASSOCIATION LIMITED	U24220MH1974GAP017819	C82318650
48	SUNKIRAN SOLAR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U40108MH2013PTC243866	C81084675
49	MZF INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U67120MH2000PTC125328	C80735301
50	NAVODAYA LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U51909MH2006PTC164105	C79359584
51	WEBVISTAR INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900MH2011PTC222234	C79174702
52	HSS WATER PURIFIER PRIVATE LIMITED	U41000MH2014PTC256034	C78719630
53	GULMOHAR FILTRATION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U29253MH2009PTC193162	C78492659
54	TIRUPATI BALAJI GLOBAL COMMODITY PRIVATE LIMITED	U51909MH2010PTC198539	C77203529
55	FOUKAR DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102MH1994PTC079647	C76978089
56	MILTON SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC094770	C76351402
57	WIZCRAFT TELEVISION PRODUCTION PRIVATE LIMITED	U93030MH2013PTC239837	C75728162
58	ARS CONSULTING PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC239288	C74896333

59	KERNSYS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900MH2010PTC200128	C74650748
60	SHRI ARPIT POLYMERS PRIVATE LIMITED	U25199MH2010PTC199875	C71982607
61	SHIVABHI IMPEX LIMITED	U45400MH2011PTC217326	C70473806
62	RICHMOND AEROSPACE PRIVATE LIMITED	U35122MH2010PTC208705	C70465141
63	MERIT MERCANTILE PRIVATE LIMITED	U51109MH2009PTC192845	C68955004
64	SHRI KRI TRADING INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED	U51909MH2005PTC156378	C67463729
65	CENTRAL STEEL & ENERGY TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	U27310MH2013PTC243816	C67323972
66	SONA FERTILIZER PRIVATE LIMITED	U01407MH2009PTC191349	C67116848
67	BIZZMANTRA ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999MH2011PTC213664	C67068346
68	KOMMUNIK MULTIMEDIA MUMBAI PRIVATE LIMITED	U72200MH2000PTC127750	C67029900
69	HOTEL SHRADDHANAND PRIVATE LIMITED	U55200MH1992PTC069966	C66797549
70	ANDY FILMS PRIVATE LIMITED	U22219MH2009PTC194624	C65733461
71	AHUJA TEXTILE MILLS PRIVATE LIMITED	U17120MH1988PTC049772	C65365389
72	SAVVY TALENT HUB PRIVATE LIMITED	U80903MH2013PTC244332	C64893829
73	ARKEO DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45400MH2011PTC219648	C64753379
74	C P ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED	U92100MH2008PTC177563	C63745087
75	CITRON SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900MH2009PTC197637	C63310114
76	KROSLINK EXPORTS PRIVATE LIMITED	U51909MH2003PTC140383	C62755335
77	INDEPENDENT MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED	U92100MH2008PTC186734	C62069877
78	MINAS IMPEX PRIVATE LIMITED	U51900MH2006PTC160425	C61321857
79	TECHNOFRENZY SOFTWARE PRIVATE LIMITED	U72300MH2012PTC235644	C60712973
80	POWER S MULTICARE PRIVATE LIMITED	U30000MH2014PTC253037	C59853010
81	RELYONUS SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999MH2014PTC257299	C59641654
82	ADDWEALTH MARKETING AND CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U51109MH2008PTC184692	C58984089
83	ROYAL MEADOW HOTELS PRIVATE LIMITED	U55204MH2013PTC247683	C58768961
84	AMRIT VAULTS PRIVATE LIMITED	U70200MH2006PTC159436	C58563388
85	JASWANT STEEL ROLLING MILLS PRIVATE LIMITED	U27100MH1987PTC044263	C58219510
86	GAZI CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U45400MH2013PTC239973	C57927774
87	BHATT AGRO COMPANY PRIVATE LIMITED	U01119MH2006PTC164772	C57230922
88	PEREIRA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U70109MH1996PTC100838	C55668081
89	MAINLAND PROJECT MANAGEMENT AND CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U70102MH2009PTC193946	C55054415
90	AJS REALTY PRIVATE LIMITED	U70102MH2009PTC193733	C55054191
91	SUN POINT HOTELS PRIVATE LIMITED	U55101MH1995PTC090312	C53864211
92	CINC INDIA PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC248293	C53516803
93	SOLARON POWER PRIVATE LIMITED	U40300MH2013PTC247535	C53156600
94	MINI MAJOR STUDIOS PRIVATE LIMITED	U92400MH2012FTC228168	C52637931
95	FALGUN PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED	U93030MH2012PTC232766	C51876662
96	DENIP CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U93090MH2009PTC194412	C51668853

97	PANVEL INDIAN LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U45200MH2008PTC187411	C50868769
98	LE-TECH INDIA PRIVATE LIMITED	U74900MH2008PTC188859	C50222231
99	IMMENSE ADVERTISING AND PUBLICATION (MUMBAI) PRIVATE LIMITED	U74300MH2003PTC140011	C49984354
100	AAROVIER PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U24239MH2011PTC215569	C50008093
101	LAWANDE PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U28920MH1979PTC021459	C49239932
102	CHILLFEST (INDIA) PRIVATE LIMITED	U92140MH2007PTC171158	C49061674
103	BOMBAY PAXWELL PHARMACEUTICAL PRIVATE LIMITED	U24239MH1979PTC021778	C48938500
104	SHREE GURUDEV DATTA CONSTRO PROJECTS PRIVATE LIMITED	U70102MH2011PTC212147	C48329858
105	DEVGIRI BUILDCON PRIVATE LIMITED	U70101MH2010PTC211492	C48340202
106	RUBY GADGETS PRIVATE LIMITED	U72909MH2012PTC236872	C48495139
107	CREATA INFOTECH PRIVATE LIMITED	U74900MH2014PTC255112	C47446729
108	STREAMING MEDIA NETWORK PRIVATE LIMITED	U92490MH2010PTC210837	C47267125
109	FLEXICAN REMEDIES PRIVATE LIMITED	U74900MH2008PTC185955	C46194122
110	BELLINI FASHIONS PRIVATE LIMITED	U18101MH2000PTC125423	C45093531
111	C. M. SHAH AND COMPANY PRIVATE LIMITED	U74140MH1971PTC015107	C42760926
112	PRIMA TRADE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC237042	C41556143
113	CINETEK MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED	U92412MH2011PTC215618	C39315163
114	AM PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED	U92412MH2012PTC229750	C39316013
115	SUN RISE TEXTILES AND INDUSTRIAL MACHINERY PRIVATE LIMITED	U29260MH1989PTC052351	C39380878
116	S R ROADWAYS PRIVATE LIMITED	U60100MH1996PTC100007	C39258751
117	SIXTYFOUR SQUARES CONSULTING PRIVATE LIMITED	U74140MH2007PTC167899	C38693602
118	UNDERCURRENT VISUALS PRIVATE LIMITED	U74900MH2012PTC234874	C38233896
119	CKS STEEL PRIVATE LIMITED	U27107MH2007PTC174701	C38093530
120	HAWALDAR'S NURSING HOME PRIVATE LIMITED	U85110MH1999PTC119133	C38093969
121	REMMA ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999MH2011PTC218955	C33453366
122	AVIVA AVIATION ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U99000MH2011PTC213767	C27671007
123	JUNO PUBLIC RELATIONS AND CORPORATE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74140MH2012PTC227207	B76625169

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Maharashtra

FORM No. STK – 6
PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Pune-411004, the 17th July 2017 and 24th July 2017

No. (1) ROCP STK 6 (2) ROCP STK 6 A (3) ROCP STK 6 B (4) ROCP STK 6 C (5) ROCP STK 6 D (6) STK6—In the matter of striking off or removal of names of companies under section 248 (2) of the Companies Act, 2013 in respect of :—

Sr. No.	CIN	Company Name
1	U00075PN2006PTC022294	INFO DYNAMIC TECHNOLOGY EXPORT PROJECTS PRIVATE LIMITED
2	U01120PN2009PTC134358	PRUTHVIJ AGRO PRIVATE LIMITED
3	U01122PN2009PTC133839	SHRI GANESH PURTI AGRI & GOAT PRIVATE LIMITED
4	U01122PN2009PTC134350	KUNJIR AGRO PRIVATE LIMITED
5	U01122PN2010PTC138124	EMPIRE AGRO PRIVATE LIMITED
6	U01122PN2013PLC148445	VRV INFRA & AGRO FARMING INDIA LIMITED
7	U01139PN2016PTC164389	SURTEJ AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
8	U01403PN2000PTC015478	EKARTHA INDIA PRIVATE LIMITED
9	U01406PN2011PTC138245	INFINITE BIOFUELS & AGRITECH PRIVATE LIMITED
10	U01407PN2014PTC151732	LODHAS AGRO FOOD PRODUCT PRIVATE LIMITED
11	U11201MH1996PTC096397	SONIA INFRASTRUCTURE & HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
12	U13204PN2004PTC019547	SHREE VISHAL JEWELLERS PRIVATE LIMITED
13	U14200PN2013PTC145857	SRRINIDHI MINERALS PRIVATE LIMITED
14	U14290PN2016PTC158192	GESTEIN MINERAL & PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED
15	U15135PN2001PTC016305	RAGHUNANDAN AGRO FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
16	U15323PN2004PTC019008	KRISHNA VALLEY GLUCOSE MANUFACTURING PRIVATE LIMITED
17	U15422PN2012PTC142850	SANJAY JAGGERY PRIVATE LIMITED
18	U15490PN2011PTC139539	SOHUM PURNANNA PRIVATE LIMITED
19	U15490PN2013PTC146017	ORGREEN PRIVATE LIMITED
20	U15490PN2013PTC148406	ONE O EIGHT FOODS PRIVATE LIMITED
21	U15500PN2007PTC130787	FLUID ALCHEMIES KEVERON BEVERAGES PRIVATE LIMITED
22	U15543PN2012PTC144157	NEERAM AQUATECH PRIVATE LIMITED
23	U17123PN2014PTC152410	WEBOVA TRADERS PRIVATE LIMITED
24	U18109PN2009PTC133468	SHARMA AND SANTOSH PARADISE APPARELS PRIVATE LIMITED
25	U22190PN2011PTC138660	SINVAL MEDIA COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
26	U22190PN2013PTC148141	HINDUSTAN PUBLISHING HOUSE AND RESEARCH PRIVATE LIMITED
27	U22212MH1995PTC089016	ORBIT PRINTERS PRIVATE LIMITED
28	U22213PN2014PTC153467	SHREEYASH PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
29	U22219PN2010PTC135966	BLACK PUBLISHERS AND PRINTERS PRIVATE LIMITED
30	U22300PN2010PTC136078	BLUE TREE ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
31	U23203PN2014PTC151039	CHINTAMANI TECHNOPOWER PRIVATE LIMITED
32	U23209PN2004PTC019101	SANGAM PETROLEUM PRIVATE LIMITED
33	U24100PN2012PTC144903	MAX ENNOVA HEALTH PRODUCTS PRIVATE LIMITED
34	U24200PN2016PTC165059	PSR NUTRICHEM PRIVATE LIMITED
35	U24232MH1996PTC101761	HAN UL MEDIZIN PRIVATE LIMITED
36	U24232PN2010PTC137302	ESKEY BIOLOGICALS HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
37	U24232PN2010PTC154212	AVENS PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
38	U24233PN2003PTC017597	ESA HERBOMATICS PRIVATE LIMITED

39	U24233PN2015PTC156261	ANR LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED
40	U24233PN2015PTC157197	HATCHDATA (INTERNATIONAL) PRIVATE LIMITED
41	U24299PN2009FTC133407	PROCOAT CHEMICALS INDIA PRIVATE LIMITED
42	U25199PN2013PTC147881	PRAGATI PLASTO PACK PRIVATE LIMITED
43	U26933PN2010PTC136644	CJN ENGINEERING PRIVATE LIMITED
44	U27100PN2015FTC157481	RUIXIN LIGHT ALLOY INDIA PRIVATE LIMITED
45	U27200PN2014PTC151349	MANESH ALUMINIUM SHEETS PRIVATE LIMITED
46	U28110PN2010PTC137656	KANDA METAL PRESSINGS PRIVATE LIMITED
47	U28999PN2006PTC129216	PERSIST FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
48	U29195PN2006PTC022061	ADITYA INDUSTRIAL CAPS PRIVATE LIMITED
49	U29210PN2008PTC131334	SCAN-AGRO EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
50	U29253PN2013PTC149549	YANTRIK ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
51	U29299PN2005PTC020942	NAGOTKAR ENGINEERING PRIVATE LIMITED
52	U29299PN2008PTC131874	ADVANCE CNC TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
53	U29304PN2010PTC137469	SILVERLINE ELECTRICAL ENGINEERING PRIVATE LIMITED
54	U31200PN2008PTC132826	DAMINI NATURAL ELECTRICAL EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
55	U31900PN2008PTC131827	CASTLET (INDIA) PRIVATE LIMITED
56	U31908PN2012PTC144703	ELECTRONICA SPECIALITY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
57	U31909PN1999PTC014115	V M MACHINED COMPONENTS PRIVATE LIMITED
58	U31909PN2011PTC139847	MAXTECH CIRCUITS PRIVATE LIMITED
59	U32106PN2009FTC152760	ROTH & RAU INDIA PRIVATE LIMITED
60	U33309PN2010PTC135872	COPF BIONIC INDIA PRIVATE LIMITED
61	U34100PN2011PTC140356	DPJ AUTOMOTIVE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
62	U34200PN2012PTC144585	MODENA ENGINE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
63	U34300PN2012PTC144702	PROMINENT INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
64	U36100PN2010PTC136950	YASHSHREE STRUCTURES & FURNITURES PRIVATE LIMITED
65	U36109PN2005PTC020994	MODUS VIVENDI FURNITURE AND LIGHTS PRIVATE LIMITED
66	U36900PN2012PTC145626	HEMU MANUFACTURING AND SERVICES PRIVATE LIMITED
67	U40104PN2010PTC137509	IRIS URJA SAVING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
68	U40106PN2008PTC131523	ECOKING ENERGY AND AGROFARMS PRIVATE LIMITED
69	U40108PN2005PTC021482	MANISH POWERS PRIVATE LIMITED
70	U40109PN2008PTC132384	PACE ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
71	U40300PN2016PTC164630	BALLARI SOLAR PRIVATE LIMITED
72	U45100PN2016OPC157902	NCUBE REALTORS INDIA (ओपीसी) PRIVATE LIMITED
73	U45200PN2008PTC133053	CONSTROMIND ENGINEERS & EARTH MOVERS PRIVATE LIMITED
74	U45200PN2010PTC136013	REFORM INFRA PRIVATE LIMITED
75	U45200PN2010PTC138143	YASH ENVIRO INFRASTRUCTURE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
76	U45200PN2011PTC138263	ZEREBRIAL INFRAA PRIVATE LIMITED
77	U45200PN2011PTC140372	BHAGVATI DEVELOPMENT CORPORATION PRIVATE LIMITED

78	U45200PN2012PTC144431	ATHARRV MULTICORP PRIVATE LIMITED
79	U45200PN2013PTC147110	NOVITA BUILCON PRIVATE LIMITED
80	U45200PN2013PTC147781	CHAITANYA LANDMARK PRIVATE LIMITED
81	U45200PN2013PTC148103	DESIGN STUDIO INTERIOR EXTERIORS PRIVATE LIMITED
82	U45200PN2013PTC149086	KPR CORPORATION PRIVATE LIMITED
83	U45200PN2013PTC149158	VAASTU NIRMAN PROPERTIES PRIVATE LIMITED
84	U45200PN2014PTC150376	VIKRANT BUILDCON PRIVATE LIMITED
85	U45201PN1990PTC056649	TAWARE CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED
86	U45202PN2000PTC015554	JINDAL MITTAL BUILDERS PRIVATE LIMITED
87	U45202PN2001PTC016483	SERENE SHELTERS (PUNE) PRIVATE LIMITED
88	U45209PN2008PTC132349	BAHIRAT TECHNOPARK PRIVATE LIMITED
89	U45209PN2011PTC138362	ARPEE INFRATECH PRIVATE LIMITED
90	U45209PN2011PTC140485	IDHANT CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
91	U45209PN2012PTC142923	METROPLAN INFRA-HEIGHTS PRIVATE LIMITED
92	U45400PN2013PTC148601	YASHADA REALTY PRIVATE LIMITED
93	U50500PN1987PTC044635	ARCHIES GARAGE PVT LTD
94	U51101PN2013PTC148297	ARTHVISHWA TRADERS AND DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
95	U51225PN2001PTC016193	KARACHIWALA IMPORT & EXPORT PRIVATE LIMITED
96	U51397PN2012PTC142294	AST PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
97	U51410PN2004PTC019463	JET PETRO INDIA PRIVATE LIMITED
98	U51900PN2012PTC142525	VIRAT MINERALS PRIVATE LIMITED
99	U51909PN2010PTC135310	PUNE MEDITECH AND AGRO EXPORT PRIVATE LIMITED
100	U51909PN2010PTC136510	MUSK EXIM PRIVATE LIMITED
101	U51909PN2011PTC138379	GORGEOUS FITNESS EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
102	U51909PN2012PTC141968	AFD ANIMAL HEALTH PRIVATE LIMITED
103	U51909PN2012PTC144081	GREENOFRESH PRIVATE LIMITED
104	U51909PN2012PTC145138	PEARLY CONSUMABLES AND SERVICES PRIVATE LIMITED
105	U51909PN2013PTC146104	VRAJ DEALERS PRIVATE LIMITED
106	U51909PN2013PTC148964	WAREACITY ENTERPRISE PRIVATE LIMITED
107	U51909PN2013PTC149500	DALVI FOOD INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
108	U51909PN2014PTC150635	BNG VENTURES PRIVATE LIMITED
109	U51909PN2016PTC165971	SHELLAC TRADING PRIVATE LIMITED
110	U52110PN2005PTC021057	MATRIX RETAIL INDIA PRIVATE LIMITED
111	U52190PN2010PTC136767	MEERA HEALTH STORE PRIVATE LIMITED
112	U52390PN2012PTC142409	RK STYLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
113	U52399PN2013PTC145866	TAMBOLI AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED
114	U52399PN2013PTC149504	KING MAKER SALES PRIVATE LIMITED
115	U54300PN1994PTC076535	ANAND AUTO SPARES PARTS (INDIA) P LTD
116	U55101PN2002PTC017461	BASIL RESTAURANT PRIVATE LIMITED

117	U55101PN2003PTC017867	MAANIKA RESORTS PRIVATE LIMITED
118	U55101PN2012PTC143762	US LEISURES PRIVATE LIMITED
119	U55103MH1966PTC013446	RAJHUNS HOTELS PRIVATE LIMITED
120	U55202PN2011PTC141503	VAISHALI RESTAURANT PRIVATE LIMITED
121	U60200PN2012PTC145381	SANAM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
122	U63022PN2006PTC021797	PUNE LOGISTICS PRIVATE LIMITED
123	U63040PN2003PTC018357	A-ONE TRAVELS AND TRADELINKS PRIVATE LIMITED
124	U63040PN2012PTC144109	GO WILD TRAVEL AND PHOTOGRAPHY PRIVATE LIMITED
125	U63090PN2013PTC146502	EZEE CABS PRIVATE LIMITED
126	U65992PN2012PTC143043	MYMONEY CHITS PRIVATE LIMITED
127	U65992PN2013PTC147106	MADHUSATTYA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
128	U67190PN2010PTC135639	CHANDAN INVESTMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
129	U70101PN1992PTC069118	PARICHAY REAL ESTATES PVT LTD
130	U70101PN1993PTC073196	RAJDARBAR TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
131	U70101PN2008PTC132524	BENU PROPERTY SERVICES PRIVATE LIMITED
132	U70101PN2011PTC141547	WHITE SWAN ONLINE PROPERTY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
133	U70102PN2006PTC128588	ORBITAL REAL ESTATE AND PROPERTIES PVT. LTD.
134	U70102PN2006PTC129379	GREEN APPLE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
135	U70102PN2008PTC132571	GOOD HEALTH LAND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
136	U70102PN2014PTC153151	DIVYASH PROPERTIES AND REALTORS PRIVATE LIMITED
137	U70102PN2014PTC153173	AJINKYANS REALTY VENTURES PRIVATE LIMITED
138	U70200MH1995PTC091137	ARDENT CERA-CHEM PRIVATE LIMITED
139	U70200PN2012PTC145137	STERLING TOWNSHIP PRIVATE LIMITED
140	U72100PN2004PTC129174	METRIXLINE SOFTWARE AND WEB DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
141	U72200MH1995PTC086077	CYBERSPACE SYSTEMS AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
142	U72200PN1995PTC089585	ENVERA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
143	U72200PN2001PTC016242	APSORA INDIA PRIVATE LIMITED
144	U72200PN2001PTC016553	KNOWGENCE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
145	U72200PN2003PTC018262	APPLICON SYSTEMS PRIVATE LIMITED
146	U72200PN2005PTC020214	SMARTSOURCER CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
147	U72200PN2007PTC130157	ACCRETION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
148	U72200PN2008PTC132061	REALCOM TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED
149	U72200PN2008PTC133072	SAGE MOBILE PRIVATE LIMITED
150	U72200PN2010PTC136595	INTIRAT IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
151	U72200PN2010PTC136614	GLIDE INTELLECTUAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
152	U72200PN2010PTC137108	ETHOUGHTS IT SERVICES PRIVATE LIMITED
153	U72200PN2010PTC137977	CONCISE SYSTEM PRIVATE LIMITED
154	U72200PN2011PTC141058	GULVE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
155	U72200PN2011PTC141441	SUVIRAJ IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

156	U72200PN2012PTC143515	STAR COMPLIANCE IT SERVICES PRIVATE LIMITED
157	U72200PN2013PTC148724	DMIC TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
158	U72200PN2015OPC154507	CAMPUSCAD TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED (OPC)
159	U72200PN2015PTC156140	OFFERLION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
160	U72300PN2013PTC147375	TRADEWISE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
161	U72400PN2008PTC133069	GREEN IT SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
162	U72400PN2012PTC144356	APPILYTICS SOFTWARE PRIVATE LIMITED
163	U72900PN2001PTC016034	ASHLAND SYSTEMS PRIVATE LIMITED
164	U72900PN2005PTC020567	EMARKETBASE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
165	U72900PN2005PTC021557	WORKMETHODS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
166	U72900PN2006PTC022026	URJIT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
167	U72900PN2009PTC133562	CRAFTORY SOFTWARE PRIVATE LIMITED
168	U72900PN2009PTC134526	JINRAJ SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
169	U72900PN2009PTC134826	RIX INFORMATICS PRIVATE LIMITED
170	U72900PN2009PTC134948	WEBONISE SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
171	U72900PN2010PTC135793	ADAPTIVE 3D TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
172	U72900PN2010PTC136981	BITSEAM SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
173	U72900PN2010PTC137563	KNOWLEDGE SQUARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
174	U72900PN2010PTC137597	CADFEM TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED
175	U72900PN2011PTC140131	EXCELSIS TECHSOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
176	U72900PN2012PTC142348	WEBOLUSION TECHVENTURE PRIVATE LIMITED
177	U72900PN2012PTC143691	APPSWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
178	U72900PN2012PTC144516	SMART DIGITAL MICROWAVE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
179	U72900PN2013PTC146219	IINVENTIX SOFTWARE PRIVATE LIMITED
180	U72900PN2013PTC146270	ELEVENSOFT TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
181	U72900PN2013PTC146852	RAJIGARE PRODUCTION PRIVATE LIMITED
182	U72900PN2013PTC147331	ECOM MAKERS PRIVATE LIMITED
183	U72900PN2013PTC148761	CURA IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
184	U72900PN2013PTC149003	1. DIONYSUS INFOCOM PRIVATE LIMITED
185	U72900PN2013PTC149225	VIEWPINE SOFTWARE PRIVATE LIMITED
186	U72900PN2013PTC149742	INNODSIRE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
187	U72900PN2014PTC150155	PARARDHA INFOTECH PRIVATE LIMITED
188	U72900PN2014PTC150512	PAT SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
189	U72900PN2015PTC157580	AADRIKAA DIGITAL PRIVATE LIMITED
190	U72900PN2016FTC164178	CMO SOFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED
191	U72900PN2016PTC158036	ICHIBAN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
192	U72900PN2016PTC164697	GERMANE IT APPLICATIONS PRIVATE LIMITED
193	U74140PN1994PTC077485	ASCENT MANAGEMENT CONSULTANTS PVT LTD
194	U74140PN2006PTC129394	JEUNE CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED

195	U74210PN2008PTC132495	CYGNUS ENGINEERING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
196	U74210PN2009PTC134878	HYDROCON TECHNOCRATS ENGINEERING PROJECTS PRIVATE LIMITED
197	U74900PN2008PTC132065	SAILEELA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
198	U74900PN2008PTC132754	BENU PLACEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
199	U74900PN2009PTC133631	APPLES & ORANGES EXPERIENCE CONSULTING PRIVATE LIMITED
200	U74900PN2009PTC133812	ATHASHREE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
201	U74900PN2009PTC133848	WAVES ART GALLERY PRIVATE LIMITED
202	U74900PN2009PTC134067	CONNOISSEUR JEWELS PRIVATE LIMITED
203	U74900PN2009PTC134611	DNA HR CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
204	U74900PN2010PTC136029	P & K CORPORATE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
205	U74900PN2010PTC137226	EMBLEM 5 MANAGEMENT CONSULTANT PRIVATE LIMITED
206	U74900PN2010PTC137318	MORPH ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
207	U74900PN2010PTC137390	VIHAN EVENTS PRIVATE LIMITED
208	U74900PN2010PTC138144	SUMERU FACILITIES PRIVATE LIMITED
209	U74900PN2011PTC138180	DIPTARA FOOTWARE AND GARMENTS PRIVATE LIMITED
210	U74900PN2011PTC138519	DJ MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
211	U74900PN2011PTC138566	FUTURE-PROOF BUSINESS CONSULTING PRIVATE LIMITED
212	U74900PN2011PTC138718	TORQUE AUTO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
213	U74900PN2011PTC138829	AVJ ENGINEERING & MARKETING PRIVATE LIMITED
214	U74900PN2011PTC139018	S.B.SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
215	U74900PN2011PTC139464	MAVIJAYA CONSULTING PRIVATE LIMITED
216	U74900PN2011PTC139651	GORE EXIM AND SHIPPING PRIVATE LIMITED
217	U74900PN2011PTC140280	MANGO DESK SYSTEMS PRIVATE LIMITED
218	U74900PN2011PTC141594	BLUEBRIDGE SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
219	U74900PN2012PTC142190	NYSST PEST CONTROL PRIVATE LIMITED
220	U74900PN2012PTC142917	HOLISTIC GROWTH PRIVATE LIMITED
221	U74900PN2012PTC143502	ATHARRV CORPORATION PRIVATE LIMITED
222	U74900PN2012PTC143553	BOOMLAA SOCIAL MEDIA PRIVATE LIMITED
223	U74900PN2012PTC143768	DYNAMIC AUTOTECH PRIVATE LIMITED
224	U74900PN2012PTC144399	FORMATICA CONSULTING PRIVATE LIMITED
225	U74900PN2012PTC144451	MEDICAL NOTES MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
226	U74900PN2013PTC146449	PAVANRAJ DISTRIBUTOR PRIVATE LIMITED
227	U74900PN2013PTC147276	VIGHNAHAR PEST CONTROL PRIVATE LIMITED
228	U74900PN2013PTC147292	ALCHEMIST SALES & MARKETING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
229	U74900PN2013PTC148324	SHRI BALAJI MEDIA AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
230	U74900PN2013PTC148614	NEO LITE AAC BLOCK PRIVATE LIMITED
231	U74900PN2013PTC148840	HINDAVI MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
232	U74900PN2014PTC150164	MIRROR EVENTS MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
233	U74900PN2014PTC150437	VAIBHAV SOLAR POWER INDUSTRIES PRIVATE LIMITED

234	U74900PN2014PTC151215	ZETA VERSITY PRIVATE LIMITED
235	U74900PN2014PTC151879	GOSWIFT EXIM PRIVATE LIMITED
236	U74900PN2014PTC152324	BISHWAMITRA HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
237	U74900PN2014PTC152392	SRI MARIICHI EXPORTS PRIVATE LIMITED
238	U74900PN2014PTC152581	PINEWOODS TECHNOLOGIES & FLEET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
239	U74900PN2014PTC152920	TMED HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
240	U74900PN2014PTC153135	FRAGRANCE STORE PRIVATE LIMITED
241	U74900PN2015PTC153610	MANVSMILES ADVENTURE PRIVATE LIMITED
242	U74900PN2015PTC153723	BABA I E-COM PRIVATE LIMITED
243	U74900PN2015PTC155320	VIWIKART ART MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
244	U74900PN2015PTC155586	PRUDENTRONIC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
245	U74900PN2015PTC156141	KOMPKART INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
246	U74920PN2015PTC156350	NARENDRAA INTEGRATED MEGA FOOD PARK PRIVATE LIMITED
247	U74994PN2007PTC130791	KARAMPURI INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
248	U74999PN2001PTC016011	ANSEC SERVICES PRIVATE LIMITED
249	U74999PN2007PTC130566	GREENENVIRO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
250	U74999PN2009PTC135176	PALMARIUM CONSULTANCY SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
251	U74999PN2009PTC135189	UNIQUE BUSINESS SOLUTIONS & ADVISORS PRIVATE LIMITED
252	U74999PN2010PTC135377	WALLPAPER COMMUNICATIONS AND DESIGNS PRIVATE LIMITED
253	U74999PN2011PTC141391	XEGO EXIM PRIVATE LIMITED
254	U74999PN2012PTC144711	ACUMEN BIZSOL PRIVATE LIMITED
255	U74999PN2013PTC148108	BALAJI TRADING CORPORATION PRIVATE LIMITED
256	U74999PN2013PTC148784	TANAY DRILLING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
257	U74999PN2013PTC149103	OLIVE92 STUDIOS PRIVATE LIMITED
258	U74999PN2014OPC153056	PURPLEBAG ECOMMERCE PRIVATE LIMITED (OPC)
259	U74999PN2014PTC150472	ROUDRA PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
260	U74999PN2014PTC151957	CYBER CONNECT INDIA PRIVATE LIMITED
261	U74999PN2014PTC152677	CAPELLA ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
262	U74999PN2014PTC152868	SHREEYASH HOUSING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
263	U74999PN2015PTC155918	KRUSHAK SANSKRUTI AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
264	U74999PN2015PTC156854	BIGRECO LABS PRIVATE LIMITED
265	U74999PN2016PTC158541	SOLARICA POWER INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
266	U74999PN2016PTC164958	SNABAR PRIVATE LIMITED
267	U74999PN2016PTC166969	CAESYS TECHNOLOGIES SOLUTION PRIVATE LIMITED
268	U80220PN2010PTC136384	BHASHIK EDUCATIONS PRIVATE LIMITED
269	U80302PN2007PTC131187	SAHYADRI ENGINEERING ACADEMY PRIVATE LIMITED
270	U80302PN2011PTC139824	VRUSHABH COACHING CLASSES PRIVATE LIMITED

271	U80903PN2011PTC140915	PROFICIENT LEARNING ACADEMY PRIVATE LIMITED
272	U85100PN2010PTC137081	IMPACT MEDITECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
273	U85100PN2012PTC143612	DHARASKAR HOSPITAL PRIVATE LIMITED
274	U85100PN2013PTC149129	EILAAJ HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
275	U85100PN2014PTC150237	SAATHI HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
276	U85110PN2005PTC020200	POOJA HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
277	U85110PN2008PTC131619	OM CHAITANYA HOSPITAL PRIVATE LIMITED
278	U85191PN2016PTC158307	NEILV HAPPY OLD AGE HOME & SERVICES PRIVATE LIMITED
279	U85195PN2005PTC021110	N-TERMINUS BIOMEDICAL TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
280	U92100PN2011PTC141287	GREEN TV PRIVATE LIMITED
281	U92413PN2012PTC145097	SRG ENTERTAINMENT 360 PRIVATE LIMITED
282	U93000PN2011PTC140945	ARCA VERDE PRIVATE LIMITED
283	U93000PN2011PTC141817	NIKS INTERNATIONAL LIFESTYLE PRIVATE LIMITED
284	U93000PN2013PTC148031	VR VERSATILE SERVICES PRIVATE LIMITED
285	U93000PN2014OPC153358	FARM FEATURES PRIVATE LIMITED (OPC)

Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(2) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above mentioned companies from the Register of Companies.

(3) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

AMOL SHINDE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of LLP Rules, 2009 and of the following LLPs

Ahmedabad-380013, the 26th July 2017

No. ROC/LLP-24/Publication/2017-18/4161—Notice is hereby given pursuant to Sub Rule 3 of Rule 37 of Limited Liability Partnership Rules, 2009 that name of the following Limited Liability Partnerships have this day been struck off from the register and the said Limited Liability Partnerships are dissolved:—

S. No.	Name of LLP	LLPIN
1.	FIO COTTONYARN LLP	AAE-5265
2.	THETA WEALTH ADVISORS LLP	AAA-2207
3.	SUN PIGMENTS LLP	AAD-5580
4.	HOPES ACCOUNTING SERVICES LLP	AAG-0670
5.	DIGIGEN INFOTECH LLP	AAG-1213
6.	KANKARIYA EXPORTS LLP	AAB-1799

7.	BRIJNET SOFTWARE LLP	AAA-0567
8.	SACKIT COMMERCIAL SERVICES LLP	AAC-2549
9.	SHILP HALLMARKING CENTRE LLP	AAE-7478
10.	VED WATER TECHNOLOGY LLP	AAG-2399
11.	RESHAREIT MEDIA LLP	AAC-5991
12.	WEAR ENGINEERING LLP	AAG-0219
13.	CENTROID DESIGN AND MANAGEMENT LLP	AAC-3151
14.	SONERA SWITCHGEAR LLP	AAF-4265
15.	SAMEEKSHA ADVISORS LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP	AAE-8394
16.	SHIVAS INFRAZONE LLP	AAB-6929
17.	GAYATRI COTSPIN PARK LLP	AAB-4947
18.	VIHA CHEMICAL LLP	AAE-8885

V K KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Gujarat, Dadra & Nagar Haveli

In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008 and of the following LLPs

Kolkata, the 27th June 2017

No. ROC/WB/LLP-75/2014/488—Notice is hereby given pursuant to under section 75 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 read with Rule 37(3) of the LLP Rule, 2009 that the names of the following LLPs have on this day been struck off from the Register and the LLPs are dissolved :—

SL NO.	LLPIN	Name of the LLP
1	AAB-6203	EO EVENTS ACT LLP
2	AAE-2096	GUNPOINT TECHNOLOGIES LLP
3	AAD-5382	INFRA EQUIPMENTS SOLUTION LLP
4	AAD-3018	KRISHNAGOPAL REALTY DEVELOPERS LLP
5	AAB-2093	PIANETA COMMERCE LLP
6	AAC-5617	PKVK PROPERTIES LLP
7	AAC-5464	PKVK REAL ESTATE LLP
8	AAD-5384	SIMCOKE POWER LLP
9	AAA-7537	SS TERQUOISE HANDCRAFTED JEWELS LLP
10	AAB-0054	XEFFICIENCY CONSULTING LLP

SAURABH GAUTAM
Assistant Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008 and of the following LLPs

Kolkata, the 25th July 2017

No. ROC/WB/LLP-75/2014—Notice is hereby given pursuant to under section 75 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 read with Rule 37(3) of the LLP Rule, 2009 that the names of the following LLPs have on this day been struck off from the Register and the LLPs are dissolved.

SL NO.	LLPIN	Name of the LLP
1	AAC-5206	ACCRETION DWELLINGS LLP

2	AAC-5520	AROUSAL BUILDWELL LLP
3	AAC-5281	AROUSAL INFRABUILD LLP
4	AAC-5516	ARROWLINE HOMES LLP
5	AAD-1821	AYANVITA TRADING LLP
6	AAC-5284	BEGONIA HOMES LLP
7	AAC-5214	CONTENT REALTECH LLP
8	AAC-5511	CONVENTION HIGHRISE LLP
9	AAC-5535	CONVENTION REALTY LLP
10	AAC-5521	DARTERS BUILDMART LLP
11	AAC-5512	DECORUM BUILDWELL LLP
12	AAC-5267	FREESIA REALTORS LLP
13	AAC-5352	GLEAM REALCON LLP
14	AAC-5221	GOLDENROD BUILDMART LLP
15	AAC-6081	GOLDENROD REALTORS LLP
16	AAC-5217	HERON DWELLINGS LLP
17	AAC-5513	LIMPID BUILDWELL LLP
18	AAC-5353	LIMPID REALTORS LLP
19	AAC-5514	LOFTY REALCON LLP
20	AAC-5264	LOONS HIGHRISE LLP
21	AAC-5210	MALLOW BUILDCON LLP
22	AAC-6082	MALLOW DWELLINGS LLP
23	AAC-5304	MIMOSA INFRABUILD LLP
24	AAC-5224	PANSY DWELLINGS LLP
25	AAC-5225	PANSY REALCON LLP
26	AAC-5261	PETUNIA NIKETAN LLP
27	AAC-5208	SALVIA BUILDWELL LLP
28	AAC-5865	UPSURGE HEIGHTS LLP

SAURABH GAUTAM
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008 and of the following LLP

Kochi-682021, the 25th May 2017

No. ROC/KL/LLP/2017/21621—Notice is hereby given pursuant to Rule 37(3) of the LLP Rules, 2009 that the following LLP have on this day been struck off from the Register and the said LLP is dissolved :—

SL.NO.	LLP REG NO.	NAME OF THE LLP
1	AAA-6088	BOSTON HEALTH NETWORK LLP

A.SEHAR PONRAJ
Registrar of Companies
Kerala

In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008 and of the following LLPs

Kochi-682021, the 6th July 2017

No. ROC/KL/LLP/2017/21620—Notice is hereby given pursuant to Rule 37(3) of the LLP Rules, 2009 that the following LLPs have on this day been struck off from the Register and the said LLPs are dissolved :—

SL.NO.	LLP REG NO.	NAME OF THE LLP
1	AAA-7350	METRO GRAINS LLP
2	AAB-4526	RHL VISION INTERACTIVE LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP

3	AAC-2745	GATES INDIA PROJECTS LLP
4	AAD-9028	G6 INFOLAB LLP
5	AAB-1647	HAPPBERRY TECHNOLOGIES LLP
6	AAC-5981	LOTUSDAYS TECHNOLOGY SOLUTIONS LLP
7	AAE-0167	PARAMKUMAMVILA TRADERS LLP
8	AAB-8455	LIME SPICES LLP
9	AAB-0070	COCHSYS INFO SOLUTIONS LLP
10	AAB-3304	DEUIND IT SOLUTIONS LLP
11	AAB-3333	DE SWITCH LLP
12	AAB-5038	TELLENIS TECHNOLOGIES LLP
13	AAC-3938	CLEARWAY INTERIORS LLP
14	AAA-3201	GO TRANZ INTERNATIONAL TRADERS LLP
15	AAA-1496	KAYSONS DEVELOPERS LLP
16	AAA-4021	COLLEGE OF PETROCHEM TECHNOLOGY LLP
17	AAA-3125	PHINOXY SOLUTIONS INDIA LLP
18	AAC-6094	SHELLOID SYSTEMS LLP
19	AAB-8027	SEISTAR MANAGEMENT CONSULTING LLP
20	AAA-4261	SOUTHNET COMPUTERS LLP
21	AAC-1457	ONGRAB PIXEL ADVERTISING LLP

A.SEHAR PONRAJ
Registrar Of Companies
Kerala

In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008 and of the following LLPs

Kochi-682021, the 19th July 2017

No. ROC/KL/LLP/2017/21654—Notice is hereby given pursuant to Rule 37(3) of the LLP Rules, 2009 that the following LLPs have on this day been struck off from the Register and the said LLPs are dissolved :—

SL.NO.	COMPANY NAME	CIN/LLPIN/FCRN
1	ALHIND ADVENTURE TOURS LLP	AAE-7670
2	ALL TIME NOVELTY INFO IDEAS LLP	AAB-9113
3	STARTUP VILLAGE BUSINESS INCUBATION SERVICES LLP	AAA-8248
4	STARTUP VILLAGE BUSINESS MANAGEMENT SERVICES LLP	AAB-0586
5	ANDRA TECHNOLOGY & CONSULTING LLP	AAB-0506
6	SALIM ASSOCIATES REALTORS LLP	AAE-2899
7	ASAHI MARKETING ENTERPRISES LLP	AAA-0392
8	ROOTZ FURNISHING SOLUTIONS LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP	AAB-9402
9	TRUSTWORTHYNO1 STOCK BROKING AND ADVISORY LLP	AAB-9510
10	STARONE TOUR SERVICES LLP	AAE-0169
11	MASSBVJ ENERGY CONSULTANTS LLP	AAC-5983
12	ZIXENT TECHNOLOGIES LLP	AAC-9880
13	DE-KEBBAH GRILL HOUSE LIMITED LIABILITYPARTNERSHIP	AAC-5074
14	PARAMBARA ADS LLP	AAE-5293
15	NOVELTY REHAB LABS LLP	AAE-8016
16	ACCELWORK LABS LLP	AAE-7908
17	KIUMMA TECHNOLOGIES LLP	AAC-4762
18	APOLLO GOLD THALASSERY LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP	AAA-1364
19	APOLLO GOLD TIRUR LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP	AAA-1409

20	APOLLO GOLD WHOLESALE AND MANUFACTURE LIMITED LIABILITY PART	AAB-0291
21	HIGHLINE CARS LLP	AAA-3900
22	PTP GROUP LLP	AAB-3919
23	POOVATH AQUA SOLUTIONS LLP	AAE-8217
24	IBOLT NETWORK LLP	AAD-1709

A.SEHAR PONRAJ
Registrar Of Companies
Kerala

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following companies

Kochi-682021, the 25th July 2017

No. Notice u/s. 560(5)/FTE/21668/2017—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following companies have this day been struck off the register and the said companies are dissolved :—

SL NO	COMPANY NAME	CIN/LLPIN/FCRN	SRN
1	CRYSTALLINE CHITS PRIVATE LIMITED	U65992KL2012PTC031569	G31556657
2	ANANTHAPURI CREDITS AND LEASING CO PVT LIMITED	U65921KL1996PTC010125	G30223366
3	NITHYAPRAKASHINI CHITS PRIVATE LIMITED	U65992KL2015PTC038863	G24712358
4	CHINOTA CHEMICALS PVT LTD	U24299KL1986PTC004598	G15954373
5	P MART MARKETING PRIVATE LIMITED	U52190KL2000PTC014431	G14456305
6	CACHET HOLDINGS PRIVATE LIMITED	U67120KL1996PTC009917	G11014552
7	ABIAN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200KL2012PTC031479	G10421295
8	PROMAG 55 HOMES PRIVATE LIMITED	U70100KL2012PTC032584	G09447665
9	AMOGH SHIP YARD PRIVATE LIMITED	U35100KL2011PTC028456	G07115975
10	ARTIS-PEOPLE MANPOWER MANAGERS PRIVATE LIMITED	U74910KL2010PTC026226	G04017216
11	TELIZ PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70100KL2007PTC021286	G02147536

A.SEHAR PONRAJ
Registrar of Companies
Kerala

In the matter of LLP Act, 2008 and of the following LLP'S

Shillong-793001, the 20th July 2017

No. ROC/SH/LLP-Rule-37(3)/2017/834—Notice is hereby given pursuant to Sub-Rule 37(3) of the LLP Rules, 2009 that the name of said companies has this day been struck off from the Register and the said LLPs are dissolved :—

SI No	CIN Number	Name of the Company
1	AAC5244	Examin Eastern Crafts LLP
2	AAA-0796	Examin Brahmaputra marketeers LLP

CHANDAN KUMAR
Registrar of Companies
N. Region, Meghalaya

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART III—SEC.1]

BANSHI DHAR DUBEY Digitally signed by BANSHI DHAR DUBEY
Date: 2017.08.12 11:23:45 +05'30'